

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 10 | अंक : 164 | गुवाहाटी | मंगलवार, 9 जनवरी, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध

पेज 2

जोरहाट ग्रेनेड विस्फोट मामले में दो और हिरासत में लिए गए

पेज 3

भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है : केशव प्रसाद मौर्य

पेज 5

आईसीसी ने प्रतिबंध हटाने वाली खाजा की अपील को ठुकराया

पेज 7

कार्बी आंगलांग के लिए 168 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन



गुवाहाटी (हि.स.)। कार्बी आंगलांग में चल रही विकास की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ते हुए मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कुल 168 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें तारालांगसो में तीन हजार लोगों को बैठने की क्षमता वाला

सेरटालिन ऑडिटोरियम है, जिसे 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित, डिफू में कासा स्टेडियम में सरसिंग तेरोन लैंगकुंग हाबे बहुउद्देश्यीय खेल परिसर। 75 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तारालांगसो में काजिर रोंगाहांगपी वीआईपी गैस्ट हाउस की विस्तारित शाखा।

म्यांमार के कैंप पर ड्रोन हमले : अल्फा का दावा

गुवाहाटी (हि.स.)। अल्फा-स्वा का दावा है कि म्यांमार के घने जंगलों में सोमवार को युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (डिडिफेंडेंट) के एक शिविर को निशाना बनाकर तीन ड्रोन हमले किए गए। अल्फा का म्यांमार में यह शिविर उन कई शिविरों में से एक है, जो भारत में सीमा पार से अभियानों के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। नए भती होने वाले कैडरों को आश्रय और प्रशिक्षण देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। परेश बरुवा के नेतृत्व वाले अल्फा-स्वा ने दावा किया कि ये हमले भारतीय सेना ने किए हैं। सूत्रों का कहना है कि पहला ड्रोन हमला आज तड़के

-शेष पृष्ठ दो पर

राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दिन ड्राई डे : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी। हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में राम लला को मूर्तिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया। राज्य सरकार के फैसले को घोषणा पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने की। गुवाहाटी में सीएम हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बरुआ ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में, असम सरकार ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और 6,000 से अधिक लोगों का अयोध्या में अभिषेक समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। इसको लेकर हिमंत विश्व शर्मा ने एक एक्स पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि 22 जनवरी को श्री राम लला की



प्राण प्रतिष्ठा के महाअवसर पर हमारे मंत्री मंडल ने ड्राई-डे की घोषणा की है। यह दिन हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 500 वर्ष के बाद भगवान अपने भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा समारोह का देश भर में बूथ स्तर पर सीधा प्रसारण करने की तैयारी में है। यह समारोह 22 जनवरी, 2024 को होने वाला है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर श्रीराम अभिषेक के लाइव प्रसारण के लिए बड़ी स्क्रीन लगाने का निर्देश दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को श्री राम लला के अभिषेक को देखने का एक साधन प्रदान करना है। सूत्र ने कहा कि इस तरह, आम जनता श्री राम लला के दर्शन कर सकती है और अभिषेक समारोह देख सकती है।

मोरेह में फिर हुई गोलीबारी सीमा मुद्दा : मिजोरम के मुख्यमंत्री की हिमंत विश्व शर्मा से मुलाकात संभव

इंफाल (हि.स.)। भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित मणिपुर के शहर मोरेह में रविवार रात से सुरक्षा बलों और सशस्त्र उग्रवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई है। सुरक्षा बलों के बैरिक पर बम से भी हमला किया गया है। मणिपुर पुलिस के अनौपचारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि रविवार रात से ही शुरू हुई गोलीबारी रुक-रुक कर होने की खबरें हैं। सोमवार सुबह भी मोरेह के वाई नंबर 8 में गश्त लगा रहे सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। इसके साथ ही मोरेह शहर के वाई नंबर 7 और 9 में भी सुरक्षा बलों और सशस्त्र आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार रविवार रात आतंकियों ने मोरेह में सुरक्षाबलों की बैरिक पर बम से हमला किया था। यहां देर रात तक गोलीबारी चलती रही। मोरेह में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच



-शेष पृष्ठ दो पर

एजल। एक अधिकारी ने यहां सोमवार को कहा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा दोनों राज्यों के बीच सीमा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस महीने अपने असम समकक्ष हिमंत विश्व शर्मा से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को मेघालय की राजधानी शिलांग में होने वाले उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के पूर्ण सत्र के दौरान उनके बीच चर्चा होने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि दोनों नेता दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए सीमा मुद्दों पर



चर्चा करेंगे। प्रस्तावित एनईसी पूर्ण सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मिजोरम की असम के साथ 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस विवाद ने जुलाई 2021 में एक भयानक मोड़ ले लिया था जब दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें छह पुलिसकर्मियों और असम के एक नागरिक की मौत हो गई थी। मिजोरम के बैंगरदे गांव के पास विवादित इलाके में हुई हिंसक झड़प में 60 से ज्यादा

-शेष पृष्ठ दो पर

पूर्वाञ्चल केशरी
(अनभौसा दैनिक)
PURVANCHAL KESARI
(ASSAMESE DAILY)
GOOD LUCK PUBLICATIONS
House No. 30, D. Neog Path,
ABC, Guwahati - 781005
Mob: 94350 14771, 97070 14771

मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू करेगी असम सरकार

गुवाहाटी (हि.स.)। असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत के साथ ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल, जिसे असम राज्य ग्रामीण



स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित असोमी सरस मेले की अभूतपूर्व उपलब्धि को सराहना करते हुए इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि

-शेष पृष्ठ दो पर

मुस्लिम परिवार ने कराई श्रीमद्भागवत कथा

नई दिल्ली। हिंदू परिवार के द्वारा श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन कराना तो लाजमी है, लेकिन क्या आपने कभी किसी मुस्लिम परिवार को श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन कराते देखा है ? जी हां, ऐसा ही एक मामला इन दिनों मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सुर्खियों में बना हुआ है। यहां एक परिवार द्वारा पिछले तीन दिनों से श्रीमद्भागवत कथा कराई जा रही है। कथा का वाचन आचार्य अभिमन्यु कृष्ण कर रहे हैं। कथा को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। हालांकि इस बीच मुस्लिम परिवार पर एक



नई दिल्ली। बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के माफी आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा से छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति बी वी नागरल और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूषण



माह की गर्भवती थीं। बानो से गोधरा ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान दुष्कर्म किया गया था। दंगों में मारे गए उनके परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटा भी शामिल

-शेष पृष्ठ दो पर

बिलकिस बानो केस : 11 दोषियों की रिहाई रद्द, फिर जाना होगा जेल

की पीठ ने सजा में छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य करार देते हुए कहा कि गुजरात सरकार सजा में छूट का आदेश देने के लिए उचित सरकार नहीं है। घटना के वक्त बिलकिस बानो 21 साल की थीं और 5

माह की गर्भवती थीं। बानो से गोधरा ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान दुष्कर्म किया गया था। दंगों में मारे गए उनके परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटा भी शामिल

कोलकाता। राशन घोटाले में मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के निरपत्ता किए जाने की खबर मिलने के कुछ ही समय के भीतर फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां ने पांच मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे। ईडी सूत्रों के



मुताबिक फिलहाल राशन घोटाले में फरार चल रहे तुण्मूल नेता के सबूत मिलाने की कोशिश की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। उनका दावा है कि शाहजहां को शायद अनुमान था कि जांचकर्ताओं को आज या कल मंत्री से उसका नाम मिल जाएगा। ऐसे में दोनों लोगों के

-शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात
जो हमारे दिल में रहता है, वो दूर होके भी पास है। लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता, वो पास होके भी दूर है।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी
दिल्ली में पार्सल यातायात पर 23 से 26 तक प्रतिबंध

नई दिल्ली (हि.स.)। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली क्षेत्र में सभी प्रकार के पार्सल लेनदेन पर 23 से 26 जनवरी तक अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि यह प्रतिबंध दिल्ली क्षेत्र के स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिंला और आदर्श नगर दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों में सभी प्रकार के पार्सल लेनदेन (लीज्ड

-शेष पृष्ठ दो पर

जर्मनी में किसानों का आंदोलन, सड़कों पर फैलाई खाद

म्यूनिख। जर्मनी में पिछले कुछ दिनों से किसान लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर किसानों ने हाइवे को जाम कर दिया है और डीजल पर सब्सिडी को खत्म करने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दरअसल, जर्मनी की सरकार ने बचत करने के लिए किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी घटाने की बात कही। इसके तहत सरकार ने कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर दिया जाने वाला पार्शियल (आंशिक) टैक्स रीफंड और कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों-ट्रैक्टर, ट्रक पर टैक्स में दी जाने वाली छूट खत्म करने का फैसला किया।



यह बात किसानों को पसंद नहीं आई और वो इसका विरोध करने लगे। किसान संगठनों ने

चेतावनी दी कि अगर उन्हें मिलने वाली सब्सिडी वापस ली गई, तो वे देशभर में प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ 18 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन, जो अभी भी जारी है। ताजा अपडेट के मुताबिक किसानों ने जर्मनी के म्यूनिख, बर्लिन समेत कई शहरों में हाइवे और सड़कें जाम कर दीं। सड़कों पर खाद भी फैला दी। हड़ताल के कारण 7 जनवरी से ही बड़ी संख्या में किसान बर्लिन आने लगे थे। यहां ऐतिहासिक ब्रैंडनबुर्ग द्वार के पास किसानों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खड़े किए हैं।

-शेष पृष्ठ दो पर

बांग्लादेश में फिर एक बार हसीना सरकार बीएनपी ने किया चुनाव का बहिष्कार

ढाका। बांग्लादेश के आम चुनावों में कमतर मतदान और बहिष्कार के बीच निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी अगामी लीग पार्टी को चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद कार्यालय में अपना पांचवां कार्यकाल हासिल कर लिया है। मतदान होने के बाद वोटों की गिनती में अगामी लीग ने शुरुआती बढ़त बनाते हुए 224 सीटों में से 216 सीटें जीत लीं। देश के चुनाव आयोग ने कहा कि बाकी सीटों का नतीजा अभी भी



की रिपोर्ट के अनुसार, अगामी लीग प्रमुख हसीना ने अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को 12वें आम चुनाव के नतीजों की

-शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivaling, Nandi etc. **ARTICLE WORLD**, S-29C, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952

देश में जून तक खोले जाएंगे सौ से अधिक पीएम दिव्याशा केंद्र

गोवा (हि.स.)। दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के मकसद से देश में जून तक 100 से अधिक प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (पीएमडीके) खोले जाएंगे। मौजूदा समय में इनकी संख्या 45 है। गोवा में चल रहे अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडीव्यूडी) के सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि पीएमडीके की संख्या बढ़ाने से दिव्यांग लोगों को सहूलियत होगी और उन्हें सहायक उपकरणों के लिए कई किलोमीटर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। पहले कृत्रिम अंग के लिए कई किलोमीटर जाकर केंद्रों पर आवेदन देना पड़ता था या फिर कैंप के आयोजन का इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब सभी कश्मीर से कन्याकुमारी, लक्षद्वीप के साथ राज्यों में पीएमडीके की शुरुआत की जा चुकी है।

शेख हसीना को पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले-

साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली। एक राजनयिक आदान-प्रदान में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री शेख हसीना से बात की, और संसदीय चुनावों में उनकी लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने चुनाव के सफल आयोजन के लिए बांग्लादेश के लोगों की भी सराहना की। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की और संसदीय चुनावों में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। मैं बांग्लादेश के लोगों को भी सफल चुनाव के लिए बधाई देता हूँ। मोदी ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ अपनी स्थायी और जन-केंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना ने रिकॉर्ड लगातार चौथी बार जीत हासिल की, क्योंकि उनकी पार्टी अवामी लीग ने आम चुनावों में भारी बहुमत हासिल किया। छिटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके सहयोगियों के बहिष्कार के बावजूद, हसीना की पार्टी ने 300 सीटों वाली



संसद में से 223 सीटों के साथ जीत हासिल की। 299 सीटों (एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण बाद में एक सीट पर चुनाव लड़ा जाना था) के लिए आयोजित चुनाव में जातीय पार्टी की 11 सीटें हासिल हुईं, जबकि बांग्लादेश कल्याण पार्टी ने एक निर्वाचन क्षेत्र में जीत

हासिल की। स्वतंत्र उम्मीदवार 62 सीटों पर विजयी हुए, जातीय समाजतांत्रिक दल और बकरी पार्टी ऑफ बांग्लादेश ने एक-एक सीट हासिल की। 76 वर्षीय हसीना, जो अवामी लीग की अध्यक्ष भी हैं, ने गोपालगंज-3 निर्वाचन क्षेत्र से भारी जीत हासिल की, जो संसद सदस्य

के रूप में उनका आठवां कार्यकाल है। इस जीत के साथ, हसीना देश की आजादी के बाद से बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधान मंत्री बनने की राह पर हैं। आम चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को कहा कि भारत बांग्लादेश का एक घनिष्ठ मित्र है और दोनों पड़ोसियों ने द्विपक्षीय रूप से कई समस्याओं का समाधान किया है। हसीना ने कहा कि भारत बांग्लादेश का बहुत घनिष्ठ मित्र है। उसने 1971 में और 1975 में भी हमारा समर्थन किया। उसने मुझे और मेरी बहन और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को आश्रय दिया। वह अपने परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद छह साल तक भारत में निर्वासन में रहने के वक्त का उल्लेख कर रही थीं। अगस्त 1975 में, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और उनके तीन बेटों को उनके घर में सैन्य अधिकारियों ने हत्या कर दी थी। उनकी बेटियां हसीना और रेहाना विदेश में होने के कारण बच गई थीं।

पोलियो प्रोटेक्शन टीम के वाहन पर हमला, पांच की मौत



काशी। पाकिस्तान का आशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एक बार फिर धमाकों से दहल गया। यहां सोमवार को हुए एक शक्तिशाली बम विस्फोट में पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। हमला पुलिस प्रोटेक्शन टीम को निशाना बनाकर उस वक्त किया गया जब एक ट्रक में बाजौर जिले में एंटी पोलियो अभियान में झूटी पर लगी पुलिस टीम को ले जाया जा रहा था। इसी दौरान आईडी धमाका हुआ जिसमें पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिस जगह पुलिस टीम को निशाना बनाया गया, वह बाजौर का मामुंद इलाका है और यह इलाका अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। साल 2021 में जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया तब से पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सटी इस सीमा पर हमले बढ़ गए हैं। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इससे पहले भी पोलियो वैक्सिनेशन अभियान पर पाकिस्तान तालिबान ने कई हमले किए हैं। ऐसे में ताजा मामले में भी पाकिस्तान तालिबान की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता।

इजराइल लक्षद्वीप में शुरू करेगा समुद्री जल को पीने लायक बनाने का कार्यक्रम

नई दिल्ली (हि.स.)। मालदीव के साथ साथ पर्यटन को लेकर शुरू हुई सोशल मीडिया जंग के बीच इजराइल ने कहा है कि वे कल से लक्षद्वीप में डिसेलिनेशन (समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना) कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इससे द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इजराइल के भारतीय दूतावास की ओर से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। उसमें कहा गया है कि कार्यक्रम शुरू करने के अनुरोध पर हम पिछले साल लक्षद्वीप में थे। इजराइल कल से इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए जो अभी तक लक्षद्वीप की प्राचीन और आलीशान जलीय सुंदरता को नहीं देख पाए हैं, यहां इस द्वीप के मनमोहक आकर्षण को दिखाने वाली कुछ तस्वीरें



हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों की ओर से भारत और प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक बयान आए थे। इन मंत्रियों को वहां की सरकार ने हटा दिया है। भारत में इसके बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव और लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहे हैं।

पीएम मोदी के विजिट के बाद गूगल पर खूब सर्च हो रहा लक्षद्वीप

नई दिल्ली। यात्रा संबंधी सेवाएं देने वाले मंच मेकमार्टिप ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जाने के बाद से उसके मंच पर द्वीप के बारे में सर्च या खोज 3,400 प्रतिशत बढ़ गई है। मेकमार्टिप ने सोशल नेटवर्किंग मंच एक्स पर पोस्ट किया कि हमने प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद से लक्षद्वीप के लिए मंच पर सर्च में 3,400 प्रतिशत की वृद्धि देखी है। मोदी के दौर के बाद लक्षद्वीप परसंदीदा पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौर के बाद लक्षद्वीप कीवर्द्ध ने गूगल सर्च में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गूगल में पूरी दुनिया में लक्षद्वीप को सर्च किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था और शानदार फोटो-वीडियो अपने सोशल हैंडल पर शेयर किए थे। कई लोगों ने भारतीय द्वीप की तुलना मालदीव और शेरेल्स जैसे विषयवार परमाणु वाले समुद्र तट स्थलों से करना शुरू कर दिया है। मालदीव के मंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया पर



प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद शुरू हो गया है। इस बीच, भारत में मालदीव के हाईकमीशन को सोमवार को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और मालदीव के कई मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणियों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई।

मालदीव सरकार ने मोदी के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए रिविचार को तीन उप मंत्रियों को निर्लंबित कर दिया है। मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों की भारत में आलोचना हुई है और कई मशहूर हस्तियों ने एक्स पर लोगों से मालदीव आने के बजाय धरंतु पर्यटन स्थलों के बारे में जानने का आग्रह किया है।

पृष्ठ एक का शेष

कार्बी आंगलांग के...

5.57 करोड़ की लागत से तारालांगसो में लेंगकुंग फांग मत्स्य पालन के सौंदर्यीकरण, लगभग 2.55 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर तारालांगसो में रंगसिनासपी अहोणजाई स्थायी खुला स्थान बनाया गया। 5.50 लाख, तारालांगसो में कुलेंग अबी मत्स्य पालन का सौंदर्यीकरण, जिसकी लागत दो करोड़ रुपए, 3.78 करोड़ रुपए से तारालांगसो में रोंगबोआं, कार्बी कैपिटल कॉम्प्लेक्स की लागत लगभग 6.86 करोड़ रुपए। तारालांगसो में कार्बी पीपुल्स हॉल का भूदृश्य और सौंदर्यीकरण। तारालांगसो में जिरलांग अरिसो की स्मृति में चेलेंग अंधेपेई की लागत लगभग रु. 4.2 करोड़, तारालांगसो में सिंग मिरजेंग वीआईपी गैलरी की लागत 99 लाख, डिफू के रोंगखेलन में नए बाजार परिसर की लागत लगभग 10 करोड़, डिफू में डीएम रोड पर सॉन वे अंतरराज्यीय बस टर्मिनल जिसकी लागत 12 करोड़ और डिफू में टूक टर्मिनल की लागत 5 करोड़ रुपए शामिल हैं। डिफू में औद्योगिक सार्वजनिक बैटक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ हिमेंत विश्व शर्मा ने कहा कि कार्बी समाज ने हमेशा एक समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा और आस्था की प्राचीन प्रणाली में दृढ़ विश्वास बनाए रखा है। मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने कहा कि कार्बी की समृद्ध संस्कृति रोंगखोंग क्षेत्र में उत्पन्न हुई और यह इस क्षेत्र से है कि कार्बी ने बारह राजधानियों की स्थापना की, जहां से उन्होंने कार्बी नियमों और अनुष्ठानों, परंपराओं और संस्कृति का अभ्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने कहा कि कार्बी समुदाय का इतिहास तीन हजार ईसा पूर्व का है और कार्बी समाज कबीले और पूर्वजों पर आधारित पारंपरिक विश्वास प्रणाली हांगरी आस्था के अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। यह कहते हुए कि किसी समाज के लिए अपनी जड़ों से जुड़ा रहना बेदद जरूरी है, मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने कहा कि कार्बी समाज अपने पैतृक विश्वासों और प्रथाओं से नाता तोड़कर लंबे समय तक प्रगति नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह देखना कार्बी युवाओं का दायित्व है कि उनके समुदाय की पुरानी आस्था समाज में अपनी प्रासंगिकता न खो दे। इस अवसर पर कार्बी समुदाय के राजा लोंगसिंग रोंगहांग, असम कैबिनेट के मंत्री जोगेन मोहन, कार्बी आंगलांग स्वयंसेवक परिषद के मुख्य कार्यकारी तुलीराम रोंगहांग, संसद सदस्य होंरेन सिंग बे, असम विधान सभा के उपाध्यक्ष डॉ गुमल मोमिन, विधान सभा के सदस्य रूपसिंग टेरोन, डॉसिंग रोंगहांग, बिद्या सिंग एंगलेंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

म्यांमार के कैप ...

4.10 करोड़, दूसरा 4.12 बजे और तीसरा 4.20 बजे किया गया। इन्हें अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से आया था। पहले विस्फोट हुए, जबकि तीसरा विस्फोट विफल रहा। इसमें अल्फा के दो सदस्य घायल हो गए।

मोरेह में फिर ...

रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही है। इस गोलीबारी की घटना से पूरे मोरेह शहर में दहशत का माहौल है। उल्लेखनीय है कि बीती 2 जनवरी को हमलावरों ने आरपीजी वाहनों को उस समय निशाना बनाया था, जब पुलिस और कमांडो म्यांमार के निकट सीमावर्ती शहर मोरेह के रास्ते पर जा रहे थे। इससे पहले 30 दिसंबर और 1 जनवरी को भी मोरेह में गोलीबारी की दो घटनाएं सामने आई थीं। इस गोलीबारी की घटनाओं में कुल पांच पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 जनवरी को इन हमलों के पीछे म्यांमार की ओर से विदेशी मशीनरी के शामिल होने का संदेह बताया था। बीरेन सिंह ने दावा किया था कि म्यांमार की ओर से विदेशी कुकी नेशनल आर्मी (केएनए-बी) मोरेह में हमलों में शामिल हो सकती है।

सीमा मुद्दा : मिजोरम ...

लोग घायल भी हुए हैं। दोनों राज्यों ने तब से कई दौर की बातचीत की है और सीमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत के माध्यम से विवाद को हल करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद 1875 और 1933 में दो औपनिवेशिक सीमांकनों से उत्पन्न हुआ। मिजोरम का दावा है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) 1873 के तहत 1875 में अधिसूचित इनर लाइन आरक्षित वन का 509 वर्ग मील क्षेत्र उसके क्षेत्र में आता है, जबकि दूसरी ओर, असम ने सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए मानचित्र को माना है। 1933 में, इसकी संवैधानिक सीमा के रूप में। इनर लाइन आरक्षित वन के भीतर के विशाल क्षेत्र अब असम के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह, 1933 के सीमांकन के अनुसार क्षेत्र का एक निश्चित हिस्सा अब

मिजोरम की तरफ है। अधिकारियों ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच सीमाओं का कोई जमीनी सीमांकन नहीं है। लालदुहेमा ने पिछले सप्ताह संवाददाताओं से कहा था कि उन्होंने शाह की हालिया दिल्ली यात्रा के दौरान उनके साथ सीमा मुद्दों पर चर्चा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की है। हम चाहते हैं कि भविष्य में विवाद और हिंसा न हो। हम मुद्दों को राजनीतिक स्तर पर हल करने पर भी सहमत हुए हैं। 16 जनवरी को कहा। इससे पहले, उन्होंने कहा था कि मिजोरम सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक सीमा समिति का गठन करेगी।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता...

अभियान शुरू कर रहे हैं, जहां हम स्वयं सहायता समूहों की 40 लाख महिला सदस्यों को आर्थिक रूप से समर्थन देने जा रहे हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए असम सरकार के अन्य प्रयासों का पूरक है। उदाहरण के लिए, स्व-कलिया योजना आय-सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करके महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सहायता पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, माजोनी योजना असम में निराश्रित विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। असम सरकार द्वारा शुरू की गई एक और उल्लेखनीय योजना स्वनिर्भर नारी है, जिसे 13 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री डॉ हिमेंत विश्व शर्मा द्वारा पेश किया गया था। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असम में बुनकरों को सशक्त करता है, जिसका लक्ष्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ये पहले राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए असम सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि उनके पास उद्यमियों के रूप में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन हों। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को समर्थन देकर राज्य एक अधिक समावेशी और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए ठोस कदम उठा रहा है।

तीन बार सांसद रह ...

वालों में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर अब महत्वपूर्ण विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसी तरह होशंगाबाद से सांसद रहे राव उदय प्रताप सिंह को भी प्रदेश में मंत्री बना दिया गया है। टीकमगढ़ सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और राजगढ़ से रोडमल नागर की दावेदारी पर भी विचार चल रहा है। वीरेंद्र कुमार भी छह बार सांसद रहे हैं। तीन बार के सांसदों में धार के छतर सिंह दरवार भी हैं। रोडमल नागर दूसरी बार के सांसद हैं, लेकिन क्षेत्र में उनका विरोध है। कई सांसद ऐसे हैं, जो कमजोर प्रदर्शन के कारण दोबारा टिकट पाने से वंचित रह सकते हैं। जानकारों का कहना है कि इनमें ग्वालियर से विवेक नारायण शेजवलकर, सागर से राजबहादुर सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, भोपाल से प्रजा सिंह ठाकुर, विदिशा से रमाकान्त भार्गव, शहडोल से हिमाद्री सिंह, मंडसौर से सुधीर गुप्ता और खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल का नाम हो सकता है। इनकी जगह पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। भाजपा लोकसभा चुनाव में युवा और नए चेहरों को अवसर देकर यहां भी पीढ़ी परिवर्तन का संदेश देना चाहती है। इससे पहले भाजपा ने राज्यसभा के लिए भी ज्यादातर नए चेहरों पर ही दांव लगाया है। जानकारों का कहना है कि नए चेहरों में खासतौर से उन युवाओं को मौका मिल सकता है, जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हैं।

मुस्लिम परिवार ने ...

मुसीबत भी आ पड़ी है। श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन कराने पर परिवार के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। गोटेगांव तहसील का छोटा सा सरा गांव इन दिनों कृष्ण भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। इस कृष्ण भक्ति में गंगा-यमुनी तहजीब भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन एक मुस्लिम परिवार कर रहा है। यूं तो नियाज खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी आस्था, श्रद्धा और भक्ति सनातन धर्म में तीन पीढ़ियों में। नियाज खान का झुकाव सनातन धर्म में उस समय हुआ, जब ब्रह्मलिन संत स्वामी स्वर्णानंद सरस्वती जी से उनकी मुलाकात हुई। धीरे-धीरे नियाज खान और पूरा परिवार ज्योतिष्य स्थिर आश्रम में जाने लगा। स्वामी जी के प्रवचन सुनकर उनके पूरे परिवार का झुकाव सनातन धर्म की ओर हो गया। जहां भी स्वामी जी की भागवत कथा होती, नियाज खान का पूरा

परिवार कथा को सुनने के लिए जाता करता। कुछ साल पहले गांव में ही कथा हो रही थी। कथा वाचक अभिमन्यू व्यास जी से नियाज की मुलाकात हुई। व्यास जी के आशीर्वाचन सुनने के बाद उनके परिवार की भी इच्छा हुई कि क्यों न वह भी भागवत कथा का आयोजन कराएं। नए साल की शुरुआत में नियाज खान ने अपने घर पर भागवत कथा का आयोजन कराया एक सप्ताह तक चलने वाली इस भागवत कथा को भागवतचार्य अभिमन्यू महाराज सुना रहे हैं। नियाज ने कहा कि उनका परिवार आज जो शिक्षार पर है, उसके पीछे सनातन परंपरा और भागवत कथा की आस्था है। हालांकि नियाज खान के सामने एक मुसीबत भी आ खड़ी हुई है। दरअसल, जैसे ही यह खबर मुस्लिम समाज में फैली कि नियाज श्रीमद्भागवत कथा कर रहे हैं, उनकी आलोचना शुरू हो गई। जबलपुर और नरसिंहपुर के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। कथावाचक भागवत आचार्य अभिमन्यू कृष्ण का कहना है कि इस तरह से किसी मुस्लिम परिवार का श्रीमद् भागवत कथा करना अपने आप में एक अनोखी बात है। इससे समाज में एक संदेश जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम सब एक भागवान के बच्चे हैं। भागवत आचार्य इस कथा को करने में खासे आनंदित भी हैं, क्योंकि नियाज खान परिवार की यह कथा धीरे-धीरे पूरे देश-प्रदेश में चर्चा का विषय बन रही है।

बिलकिस बानो केस...

थी। गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को सजा में छूट दे दी थी और उन्हें रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी बी नानावा और न्यायमूर्ति उज्वल भुईया की पीठ ने कहा कि सजा में छूट का गुजरात सरकार का आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया और पूछा कि क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के मामलों में सजा में छूट की अनुमति है, चाहे वह महिला किसी भी धर्म या पंथ को मानती हो। गौरतलब है कि बिलकिस बानो और उसके परिवार के सदस्यों के साथ साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान दारिद्री की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

मंत्री की गिरफ्तारी ...

बीच बातचीत का सबूत मोबाइल पर मिल जाएगा। इसके बाद से ही वह केंद्रीय एजेंसी की नजर में था। बता दें कि गत शुक्रवार को टीएमसी नेता शाहजाहां को गिरफ्तार करने गई ईडी की टीम पर उसके समर्थकों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें तीन अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांचकर्ताओं के अनुसार कई टीएमसी नेताओं ने सबूत खोने के मकसद से अपने मोबाइल फोन नष्ट कर दिए हैं। उदाहरण के लिए मुश्ताबाबाद के बन्स्य से तुणमूल विधायक जीवनकृष्ण साहा ने घर पर छापेमारी के दिन अपना मोबाइल फोन सीबीआई अधिकारियों के सामने तालाब में फेंक दिया था। हालांकि बाद में इसे बरामद कर लिया गया। इसी तरह ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार सुजनकृष्ण भद्र के मोबाइल फोन से सबूत मिलने के बाद उनकी आवाज का नमूना लेकर फॉरेंसिक भेजा है।

जर्मनी में किसानों का ...

और किसान उनके हैं बजाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बर्लिन पुलिस ने बताया कि 8 जनवरी को सुबह 10 बजे तक उन्होंने प्रदर्शन में भाग ले रहे 566 ट्रैक्टर, ट्रक, गाड़ियों और ट्रेलरों को गिनती में है। देशभर में ऐसे सैकड़ों प्रदर्शन जारी हैं। उत्तरी और पूर्वी जर्मनी में भी कई जगहों पर यातायात और जनजीवन प्रभावित होने की खबर है। कई जगहों पर किसानों की रैलियां भी प्रस्तावित हैं। बीते दिनों बजट की घोषणा करते हुए सरकार ने बड़े स्तर पर कटौती करने की घोषणा की थी। इस प्रस्तावित कटौती के तहत सरकार करीब 6,000 करोड़ यूरो की बचत करना चाहती है। इस फैसले की पुष्ट्यभूमि में कोविड-19 के दौरान संसद द्वारा मंजूर किए गए क्रेडिट्स हैं। इस फंड का जो हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसे 2021 में सरकार ने विशेष फंड में स्थानांतरित कर दिया था। नवंबर 2023 में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने फैसला दिया कि महामारी से जुड़े फंड को किसी अन्य मद में इस्तेमाल करना अस्वैधानिक है। इस फैसले के बाद सरकार के आगे बजट का गंभीर संकट खड़ा हो गया और बचत की अनिवार्यता पैदा हो गई। खर्च कम करने की कोशिशों के तहत सरकार 8,000 करोड़ यूरो को बचत करना चाहती है। इसी क्रम में किसानों को दो जाने वाली सब्सिडी घटकर भी सरकारी खर्च में कटौती की योजना है। इसके लिए कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले डीजल को घटाने वाला आंशिक टैक्स रीफंड और कृषि गाड़ियों पर टैक्स में छूट

खत्म करने की योजना है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। विरोध के मद्देनजर पिछले हफ्ते सरकार ने कहा कि वह सब्सिडी में प्रस्तावित कटौती को थोड़ा कम करेगी, लेकिन जर्मन फार्मर्स असोसिएशन ने इसे अपर्याप्त बताया और प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया। विरोध प्रदर्शन के बीच दक्षिणपंथी तत्वों के घुसपैठी की आशंका भी सामने आई है। पिछले हफ्ते जर्मनी के आंतरिक मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने चेतावनी दी थी कि देश विरोधी और दक्षिणपंथी तत्व, किसान प्रदर्शनों को अपने हित में भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। शुरुआत में आंशिक रीफंड की प्रतिवृत्ति आरंभ की जा चुकी है, इसके प्रमुख स्टेफान क्रामर ने भी यह आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि दक्षिणपंथी चरमपंथी लोग किसानों के प्रदर्शनों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। एक अखबार से बात करते हुए क्रामर ने कहा कि ऐसे भावुक मुद्दे उनकी रणनीति के लिए मुफ़िद होते हैं। किसानों का कहना है कि सब्सिडी में कटौती किए जाने से उनका रोजगार प्रभावित होगा। रॉयटर्स के मुताबिक जर्मन फार्मर्स असोसिएशन के अध्यक्ष जोआकिम रुकवोड ने कहा- सरकार के फैसले से ना केवल किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, बल्कि जर्मनी के कृषि क्षेत्र के कॉम्पिटिशन पर भी असर होगा। इसके अलावा खाने-पीने की चीजों में महंगाई बढ़ेगी। एक किसान ने कहा- इसके कारण सालाना करीब 20,000 यूरो यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। किसानों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए और कोर्ट की दखल के बाद बजट मसौदे को अंतिम रूप नहीं मिल सका। कोर्ट ने सरकार को सब्सिडी में कटौती की योजना को संशोधित करने का आदेश दिया। इसके बाद 4 जनवरी 2024 को सरकार ने कहा डीजल पर दिया जाने वाला पार्शियल (आंशिक) टैक्स रीफंड और कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों-ट्रेक्टर, ट्रक पर टैक्स में दो जाने वाली छूट एकदम से खत्म नहीं होगी। इस साल सब्सिडी 40 फीसदी कम की जाएगी, 2025 में 30 फीसदी कम कर दी जाएगी और 2026 से पूरी तरह खत्म की जाएगी। किसान सरकार के इस फैसले से भी नाराज हैं, लिहाजा किसान आंदोलन जारी है। सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। यह आंदोलन बढ़ता गया। केंद्र सरकार के इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने के बाद 11 दिसंबर 2021 को किसान आंदोलन खत्म हुआ था।

बांग्लादेश में फिर...

घोषणा के बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकालने का निर्देश दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री खलिदा जिया के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को मतदान से पहले राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए चिह्नित किया गया था और हसीना द्वारा तटस्थ कार्यवाहक सरकार के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने पद से हटने से इनकार करने के बाद वोट का बहिष्कार करने की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश में 2024 के चुनावों में मौजूदा सरकार के खिलाफ बहिष्कार के बीच रविवार को काफी कम मतदान हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल ने कहा कि कुल मतदान 40 प्रतिशत रहा। बांग्लादेश के टीवी स्टेशनों के अनुसार, अवामी लीग ने देश की कुल 299 सीटों में से 216 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 52 सीटों पर और जातीय पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक सभी सीटों के अंतिम नतीजों की घोषणा नहीं की है। जबकि बांग्लादेश में चुनाव का दिन शांत था और गड़बड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, चुनाव पूर्व विरोध प्रदर्शनों में आगजनी की कम से कम 18 रिपोर्टें देखी गईं, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने हिंसा के लिए बीएनपी को जिम्मेदार ठहराया और उस पर चुनाव में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया।

दिल्ली में पार्सल ...

एसएलआर, वीपी और डिडामंड वीपी सहित) पर लागू होगा। यह प्रतिबंध दिल्ली क्षेत्र में लोडिंग व अनलोडिंग के लिए स्टॉपिज वाले अन्य डिवीजनों व क्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी लागू होंगे। उन्होंने बताया कि पार्सल गोदाम और प्लेटफॉर्म पार्सल पैकेज व पैकिंग से मुक्त रहेंगे और उक्त सभी स्टेशनों पर लीज्ड एसएलआर और वीपी (मांग वीपी सहित) सहित आवक और जावक पार्सल ट्रेफिक दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल यात्री डिब्बों में व्यक्तिगत सामान की अनुमति दी जा सकती है और सभी व्यावसायिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पंजीकृत समचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग की अनुमति दी जाएगी।

तापमान	
अधिकतम	न्यूनतम
27°	12°



केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 20 को ब्रह्मपुत्र किनारे के सौंदर्यीकरण का करेंगे उद्घाटन



गुवाहाटी (हिस)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आगामी 20 जनवरी को राजधानी के पानबाजार में ब्रह्मपुत्र किनारे के सौंदर्यीकरण परियोजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। असम सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्री अशोक मिश्र ने आज गुवाहाटी के पानबाजार में पुलिस आयुक्त के पुराने बंगला परिसर में ब्रह्मपुत्र किनारे चल रही विकास परियोजना के कार्य का निरीक्षण किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थल पर बन रहे पार्क की प्रगति का जायजा लेते हुए उन्होंने पार्क के अंतिम चरण के कार्य का अवलोकन किया और ड्यूटी पर तैनात ठेकेदारों और श्रमिकों का आवश्यक मार्गदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नद के तट के विकास के लिए एक विश्व स्तरीय दृष्टिकोण के साथ आगे आई है। अगले दशक में गुवाहाटी को न केवल पूर्वोत्तर भारत, बल्कि पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाने के उद्देश्य से शहर के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने और सुशांति बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए गए हैं। आज के निरीक्षण के दौरान मंत्री सिंघल के साथ गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नारायण डेका के साथ प्राधिकरण के अधिकारी और आवास एवं शहरी मामलों के विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

अवैध रूप से बालू ले जा रहे वाहन जब्त



नगरबेड़ा (विभास)। कामरूप जिले के बोको निर्वाचन क्षेत्र में नगरबेड़ा नदी आरक्षित वन अधिकारी के कार्यालय के वन अधिकारी सिबाशीष चॉडिल्य के आदेश पर वन विभाग के वन अधिकारियों के एक समूह ने आज सुबह लारुआजान में रेत से भरे एक वाहन को जब्त करने में कामयाबी हासिल की। यह पता चला है कि रेंजर सिबाशीष चॉडिल्य के आदेश पर एक गुप्त सूचना के आधार पर एक वाहन संख्या एसएस 01 एएमसी 5152 अनधिकृत तस्करी की रेत से भरा हुआ था और लारुआजान से गोरेमरी की ओर जा रहा था। जब अनधिकृत तस्करी से लदा रेत लदा वाहन वर्तमान में गोरेमरी वीट कार्यालय में खड़ा है। वन विभाग के इस तरह के अभियान को प्रकृति प्रेमी जनता द्वारा बहुत सराहा गया है।

गणतंत्र दिवस को लेकर कामरूप जिला प्रशासन ने की महत्वपूर्ण बैठक

रंगिया (विभास)। देशभर में आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के जश्न का बेसब्री से इंतजार है, इसी कड़ी में कामरूप जिला भी आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों में जुट गया है। इसके अंतर्गत आज कामरूप जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त आयुक्त सुजाता गोगोई की अध्यक्षता में आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। कामरूप जिले के एकीकृत आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस प्रशासन, सैन्य और अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह और इस संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों को औपचारिक रूप से जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं तथा गणतंत्र दिवस समारोह के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आगामी गणतंत्र



दिवस को उत्साह और सफलता के साथ मनाने के लिए सभी से अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाने का आह्वान किया गया। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारी, सैन्य और अर्धसैनिक बल सहित कामरूप जिले के पुलिस अधीक्षक हितेश चंद्र राय, कामरूप जिले के अतिरिक्त आयुक्त क्रमशः कमल बरुआ, सुनमी कलिता, डॉ. जीवन कृष्ण गोस्वामी, प्राणजीत कुमार देव, महकमाधिपति सदर श्यामन्त रवि बोरा, निर्वाचन अधिकारी, राजस्व चक्राधिकारी, सहायक आयुक्त समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी शामिल हुए।

असम में सोयाबीन की खेती शुरू, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए नई उम्मीदें

गुवाहाटी। असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डीएसटी के तहत एक स्वशासी संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान (आईएसएसटी) द्वारा पूर्वोत्तर भारत में कृषि परिदृश्य और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जीवन को बदलने के लिए सोयाबीन उपज की एक अभूतपूर्व परियोजना कार्य का आरंभ किया गया है। पूर्वोत्तर भारत, जहां बहुत से लोग छोटे पैमाने पर पशु चारा व्यवसायों और सोयाबीन से बने किण्वित व्यंजनों पर निर्भर हैं, यह फसल क्षेत्र की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। हालांकि, पूर्वोत्तर भारत में सोयाबीन की खेती नहीं की जाती है। जिस कारण, अन्य राज्यों से आयातित सोयाबीन बीज पर निर्भरता से क्षेत्रीय उद्योग विकास में सुधार करने की आवश्यकता है, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपये प्रति माह से अधिक है। इसके महत्व को समझते हुए और स्वदेशी कृषि का समर्थन करने के लिए, आईएसएसटी डीएसटी-प्रायोजित एसटी/एससी सामुदायिक विकास पहल में सम्मिलित हुआ। आईएसएसटी के निदेशक प्रोफेसर आशीष कुमार मुखर्जी ने मॉडिया का संबोधित करते हुए बताया कि इस अनुसंधान का लक्ष्य स्टार्ट कल्चर को वितरित करना, सोयाबीन



से प्राप्त विभिन्न उत्पादों की जांच करना, किण्वित सोयाबीन की युग्मता में सुधार करना, किण्वित सोयाबीन उत्पादों के बड़े पैमाने पर व्यावसायिकरण को सक्षम करना और उनके पोषण मूल्यों का आकलन करना है। परियोजना के पीआईडी मॉड्यूलिजर आर खान ने परियोजना कर्मचारियों के सहयोग से, किसानों, विशेषकर असम के उदालगुड़ी जिले में बोड़े समुदाय को शिक्षित करने के लिए कई प्रशिक्षण सत्र और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए। टिकाऊ आजीविका और महिला सशक्तिकरण के लिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप, बरसात गांव में, शुरुआत में आठ बोधो जमीन पर सोयाबीन की खेती करने के लिए आईएसएसटी

के मार्गदर्शन में दाओगलंग सोया सोसाइटी और ग्वर्जरी सोया सोसाइटी जैसी समितियों का गठन किया गया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आईएसएसटी ने असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट और कृषि विज्ञान केंद्र के साथ सहकार्यता की। विशेष रूप से महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, जिससे समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़े और सोया टोफू सहित विभिन्न प्रकार के सोयाबीन उत्पादों के प्रसंस्करण में तेजी देखी गई। इसके अलावा, सोयाबीन-आधारित आजीविका प्रणाली का विकास करने के लिए, आईएसएसटी ने उत्पाद प्रोत्साहन के विकास, सोयाबीन-आधारित उत्पादों के उन्नयन और विपणन

मारवाड़ी सम्मेलन, नगांव शाखा का स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित

नगांव (निर्स)। मारवाड़ी सम्मेलन नगांव शाखा ने अपोलो हॉस्पिटल डायग्नोसिस सेंटर नगांव के साथ संयुक्त रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इसके अंतर्गत दिनांक 5 एवं 6 जनवरी 2024 को दो दिवसीय स्वास्थ्य जांच परीक्षण का आयोजन नगांव के नव स्थापित अपोलो क्लिनिक में किया गया। 5 जनवरी को सुबह 10 बजे शिविर के शुभारंभ के अवसर पर अपोलो क्लिनिक नगांव के डायरेक्टर रोशन कंकानी, सेंट्रल मैनेजर रूपाकर दत्ता के साथ अपोलो समूह के कई कार्यक्रमों की गंगादीक शाखा के आजीवन सदस्य मोहनलाल शारदा भी उपस्थित थे। सभी का नगांव शाखा की ओर से फुलाम गम्छा पहनाकर अभिनंदन किया गया। सम्मेलन नगांव शाखा की ओर से उपाध्यक्ष अजीत माहेश्वरी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, सम्मान समारोह का संचालन अरुण नागरका ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन सचिव अजय



मितल ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के संयोजक विक्रम करवा थे। इस अवसर पर समाज सेवी प्रहलाद राय मितल, सांवरमल खेलावत, महाबीर केजरीवाल, सहित सम्मेलन के काफी सदस्य उपस्थित थे। दो दिवसीय शिविर में 90 से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई जिसमें निःशुल्क जांच के अलावा 2500 में होने वाली जांच मात्र 750 में की गई तथा अन्य रक्त जांच पर 50 प्रतिशत

सोना भानु की मौत से इलाके में पसरा मातम



नगरबेड़ा (विभास)। बरपेटा जिले के चेंगा निर्वाचन क्षेत्र के कसुमारा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले कराईखेती गांव के सोना भानु की मौत ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। कराईखेती गांव निवासी ताजुद्दीन अहमद की पत्नी सोना भानु (105) की वृद्धावस्था के चलते बीती रात करीब सात बजे घर पर मौत हो गई। उनकी मृत्यु के समय, वह अपने पीछे एक बेटी और पांच बेटे और पोते छोड़ गए। सोना भानु के निधन से क्षेत्र के लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए उनकी चिर शांति की कामना की। स्थानीय कब्रिस्तान में देर रात एक बजे मृतक सोना भानु के कई श्रद्धालुओं की मौजूदगी में नमाज-ए-जनाजा अदा की गई।

इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ 17 को आएंगे गुवाहाटी

गुवाहाटी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक अवतरण कराने वाले वैज्ञानिक दल के प्रमुख डॉ. श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर गुवाहाटी आए रहे हैं। वह 17 जनवरी, 2024 को प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह और विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय के पंजीयक डॉ. योगेश काकती ने यह जानकारी दी है कि गुवाहाटी में नव स्थापित प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने चंद्रयान-3 के विजय उत्सव तथा हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य एल-1 के सूर्यमुखी अभियान के उपलक्ष्य पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर इसरो के अध्यक्ष तथा वैज्ञानिक डॉ. श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ को सम्मानित करेंगे। उल्लेखनीय है कि श्रीमंत शंकरदेव शिक्षा और



गवेषणा न्यास द्वारा स्थापित और वर्ष 2023 से स्नातक कक्षाएं शुरू करने वाला प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय ने 2024-25 वर्ष से निर्धारित सभी विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। अगले शिक्षा वर्ष से मुख्य केन्द्र चंद्रपुर स्थित हाजोबड़ी में स्थायी रूप से पाठदान शुरू करने वाले विश्वविद्यालय वर्तमान

24वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, रंगिया का सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

कुमारीकाटा। श्री दीपक सिंह, कमांडेंट के मार्गदर्शन में, 24वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रंगिया के द्वारा पूर्वोत्तर नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत कुमारीकाटा स्थित खादीग्राम उद्योग विद्यालय प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई के 30 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन किया गया। इस सिलाई कोर्स के दौरान सीमा क्षेत्र के 20 पुरुष/महिलाओं को सिलाई की विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिया गया। इसका समापन मुख्य अतिथि श्री मती लाल उप-कमांडेंट 24वीं वाहिनी स.सी.ब. रंगिया (असम) द्वारा किया गया। सिलाई प्रशिक्षण हेतु आए विद्यार्थियों/महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री मती लाल उप-कमांडेंट ने सिलाई के विभिन्न लाभों के बारे में बताया उन्होंने कहा कि यह घरलू जरूरतों के वैज्ञानिक दल के प्रमुख डॉ. श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर गुवाहाटी आए रहे हैं। वह 17 जनवरी, 2024 को प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह और विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय के पंजीयक डॉ. योगेश काकती ने यह जानकारी दी है कि गुवाहाटी में नव स्थापित प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने चंद्रयान-3 के विजय उत्सव तथा हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य एल-1 के सूर्यमुखी अभियान के उपलक्ष्य पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर इसरो के अध्यक्ष तथा वैज्ञानिक डॉ. श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ को सम्मानित करेंगे। उल्लेखनीय है कि श्रीमंत शंकरदेव शिक्षा और



लिए युवाओं/महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मती लाल उप-कमांडेंट महोदय द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को सिलाई देश निरंतर रूप आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि 24वीं वाहिनी रंगिया द्वारा निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है एवं भीक्ष्य भी किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमरा ध्येय

श्री भैरु जी महाराज के 14वें वार्षिक अमृत भंडारे में उमड़ा आस्था का जन-सैलाब

गुवाहाटी। रविवार को भैरुजी भक्त मंडल पान बाजार गुवाहाटी द्वारा भैरुजी महाराज का 14वां अमृत भंडार प्रातः 11 बजे से शवशान काली मंदिर, कामख्या धाम में धूमधाम से आयोजित किया गया। जिसमें गुवाहाटी सहित आस पास के भक्तों ने भाग लिया। भैरुजी महाराज का यह अमृत भंडार प्रत्येक नव वर्ष के प्रथम रविवार को आयोजित किया जाता है। इस अवसर भैरुजी महाराज का अभिषेक और माली-पाना श्रृंगार भी किया गया। श्रृंगार करण मारू, नितिन जसाईवाल, गोकुल मावतवाल ने किया। अमृत भंडार को सफल बनाने में मनोज गहलोत, गोकुल मावतवाल, नितिन जसाईवाल, करण मारू, मनोज खुदरा, ललित सुराणा, पारस जैन, सुरेशल सुराणा, प्रशान मालू, पन्नालाल मारू, मनोज मोयल मधु पेरिवाल, महेंद्र बोथरा, सुजित अग्रवाल, पवन जाखड, आदि ने विशेष धूमिका निभाई। संयोजक मनोज गहलोत ने बताया कि इस अवसर पर भैरुजी मंडल द्वारा संगीतमय भजन कीर्तन भी किया गया। और बाबा की ज्योत भी की गई। भैरव भक्तों ने महिलाओं और बच्चों सहित पधार कर भैरु बाबा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। सदस्यों ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। मनोज

रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी

गुवाहाटी (हिस)। सतकंता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, असम के अधिकारियों ने सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी और एक बिचौलिए को रंगे हाथों पकड़ा और गिरफ्तार किया। सतकंता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने असम के कामरूप जिले के चमरिया विकास खंड के एक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को गिरफ्तार कर लिया। एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि चमरिया विकास खंड के बीडीओ दीप कंत चमुआ ने उसी कार्यालय के कंप्यूटर सहायक भास्करन्योति दत्ता के साथ साजिश चकर रूपरूप की मांग की थी। शिकायतकर्ता द्वारा पूरे किए गए कार्यों के बिलों के भुगतान के एवज में शिकायतकर्ता से 61 हजार रुपये का रिश्वत मांगा गई। रिश्वत देने के इच्छुक नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने उपरोक्त लोक सेवकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए निदेशालय से संपर्क किया।

प्रज्वलन और शिल्पी दिवस के उपलक्ष्य में महान कलाकार ज्योतिप्रसाद आरवाला की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया जाएगा। अधिकारियों ने अगवत कराया है कि उक्त कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए गूगल फॉर्म के जरिए 9 जनवरी से पूर्व पंजीयन करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आशा की है कि इच्छुक विद्यार्थी 9 जनवरी, 2024 से पूर्व प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म पर अपना नाम पंजीकृत करवाकर प्रख्यात वैज्ञानिक से मिलने का लाभ उठा सकते हैं। प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर स्मित कुमार सिंह, आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर परिमल चंद्र भट्टाचार्य, विश्वविद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉ. जगदीश रॉय चौधरी और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर योगेश काकती उपस्थित रहकर पत्रकार बंधुओं को इस बारे में अगवत करवाया।

श्री भैरु जी महाराज के 14वें वार्षिक अमृत भंडारे में उमड़ा आस्था का जन-सैलाब

गुवाहाटी। रविवार को भैरुजी भक्त मंडल पान बाजार गुवाहाटी द्वारा भैरुजी महाराज का 14वां अमृत भंडार प्रातः 11 बजे से शवशान काली मंदिर, कामख्या धाम में धूमधाम से आयोजित किया गया। जिसमें गुवाहाटी सहित आस पास के भक्तों ने भाग लिया। भैरुजी महाराज का यह अमृत भंडार प्रत्येक नव वर्ष के प्रथम रविवार को आयोजित किया जाता है। इस अवसर भैरुजी महाराज का अभिषेक और माली-पाना श्रृंगार भी किया गया। श्रृंगार करण मारू, नितिन जसाईवाल, गोकुल मावतवाल ने किया। अमृत भंडार को सफल बनाने में मनोज गहलोत, गोकुल मावतवाल, नितिन जसाईवाल, करण मारू, मनोज खुदरा, ललित सुराणा, पारस जैन, सुरेशल सुराणा, प्रशान मालू, पन्नालाल मारू, मनोज मोयल मधु पेरिवाल, महेंद्र बोथरा, सुजित अग्रवाल, पवन जाखड, आदि ने विशेष धूमिका निभाई। संयोजक मनोज गहलोत ने बताया कि इस अवसर पर भैरुजी मंडल द्वारा संगीतमय भजन कीर्तन भी किया गया। और बाबा की ज्योत भी की गई। भैरव भक्तों ने महिलाओं और बच्चों सहित पधार कर भैरु बाबा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। सदस्यों ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। मनोज

श्री भैरु जी महाराज के 14वें वार्षिक अमृत भंडारे में उमड़ा आस्था का जन-सैलाब



गहलोत ने विश्वनाथ विनीत मोर का विशेष सहयोग के लिए आधार प्रकट किया !

भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है : केशव प्रसाद मौर्य

हिम्मत है तो राजद घोषणा करे कि उसे मंदिर जाने वालों के वोट नहीं चाहिए : सुशील मोदी

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद लखनऊ के विकास खंड मलिहाबाद के ग्रामसभा जिनदौर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि सहित अन्य लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। हस्तशिल्पियों को टूल किट, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड तथा गरीबों को कम्बल वितरित किए। उप मुख्यमंत्री ने बाल विकास पुष्पाहार, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशुपालन, ग्राम्य विकास, मत्स्य विभाग, उद्यान, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, खाद्य रसद, राजस्व विभाग बैंकिंग, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार कराया। उन्होंने महिलाओं एवं उनके बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के संदर्भ में जानकारी भी ली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी



द्वारा वंचित/छूटे लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री के जनपद आगमन पर हमारा संकल्प विकसित भारत के निमित्त भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने, गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने तथा भारत की एकता को सुदृढ़ रखते हुए देश की रक्षा करने वालों

का सम्मान करने की बात कही और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने से सम्बन्धित शपथ दिलाई। इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों पर आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने, गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने तथा भारत की एकता को सुदृढ़ रखते हुए देश की रक्षा करने वालों

विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। जिसका उद्देश्य पूरे देश के अंदर केंद्र, राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त जन कल्याणकारी एवं लाभार्थीपरक योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। किसी भी योजना से वंचित पात्र महिला-पुरुष लाभार्थियों को आच्छादित करना तथा योजनाओं के लाभ से आच्छादित हो चुके लाभार्थियों द्वारा शेष से अफलातन हो चुके लाभार्थियों द्वारा शेष से अफलातन हो चुके लाभार्थियों को लाभान्वित करना और उनका जीवन सुधारा देना है। उप योजनाओं से उन्हें आच्छादित कर जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि हर घर में खुशहाली पहुंचे, यही विकसित भारत संकल्प यात्रा के मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आगामी होली त्यौहार पर भी आधार कार्ड से लिंक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलिन्डर की मुफ्त रिफिलिंग का लाभ दिए जाने की योजना है। उन्होंने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरी निष्ठा एवं सहभागिता के साथ लोगों को जागरूक कर पात्रों को योजनाओं का लाभ बनाकर हर एक शोचित, गरीब, वंचित, जनता

तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उसके जीवन में परिवर्तन लाकर वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया के सामने एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि जिन पात्र व्यक्तियों को अभी तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन योजनाओं से उन्हें आच्छादित कर जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि हर घर में खुशहाली पहुंचे, यही विकसित भारत संकल्प यात्रा के मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आगामी होली त्यौहार पर भी आधार कार्ड से लिंक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलिन्डर की मुफ्त रिफिलिंग का लाभ दिए जाने की योजना है। उन्होंने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरी निष्ठा एवं सहभागिता के साथ लोगों को जागरूक कर पात्रों को योजनाओं का लाभ बनाकर हर एक शोचित, गरीब, वंचित, जनता

तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उसके जीवन में परिवर्तन लाकर वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया के सामने एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि जिन पात्र व्यक्तियों को अभी तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन योजनाओं से उन्हें आच्छादित कर जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि हर घर में खुशहाली पहुंचे, यही विकसित भारत संकल्प यात्रा के मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आगामी होली त्यौहार पर भी आधार कार्ड से लिंक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलिन्डर की मुफ्त रिफिलिंग का लाभ दिए जाने की योजना है। उन्होंने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरी निष्ठा एवं सहभागिता के साथ लोगों को जागरूक कर पात्रों को योजनाओं का लाभ बनाकर हर एक शोचित, गरीब, वंचित, जनता

तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उसके जीवन में परिवर्तन लाकर वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया के सामने एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि जिन पात्र व्यक्तियों को अभी तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन योजनाओं से उन्हें आच्छादित कर जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि हर घर में खुशहाली पहुंचे, यही विकसित भारत संकल्प यात्रा के मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आगामी होली त्यौहार पर भी आधार कार्ड से लिंक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलिन्डर की मुफ्त रिफिलिंग का लाभ दिए जाने की योजना है। उन्होंने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरी निष्ठा एवं सहभागिता के साथ लोगों को जागरूक कर पात्रों को योजनाओं का लाभ बनाकर हर एक शोचित, गरीब, वंचित, जनता

पोस्को मामले में लापरवाही को लेकर सिमराहा थानाध्यक्ष को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश

अररिया (हिंस)। अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह स्पेशल पोस्को के अजय कुमार के कोर्ट ने सिमराहा थानाध्यक्ष द्वारा पोस्को मामले में लापरवाही बरतने के मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए 20 जनवरी को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। कोर्ट ने एसपी के माध्यम से कोर्ट के आदेश के बावजूद सिमराहा थानाध्यक्ष द्वारा मामले में लापरवाही बरतने और ड्यूटी में फेल रहने पर आदेश दिया मामला अररिया महिला थाना कांड संख्या -33/2018 स्पेशल पोस्को कांड संख्या 19/2018 से संबंधित है। भारतीय दण्ड विधान 376 के तहत उच्च मामले में सिमराहा थाना क्षेत्र के पोडिया निवासी मुस्ताक के पुत्र आरोपी मुंशी राजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष को ड्यूटी में लापरवाही बरतने की बात कही।

गेस्ट हाउस कांड को भुलाया नहीं जा सकता : मायावती

लखनऊ (हिंस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए सपा को अति-पिछड़ों के साथ-साथ दलित-विरोधी पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि लोग गेस्ट हाउस कांड को भूलें नहीं हैं। मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा से गठबंधन करके इनके दलित-विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित-विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। सपा मुखिया अब जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के दो जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों (गेस्ट हाउस कांड) को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित-विरोधी फैसले लिये गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि उनकी सरकारों में बसपा के यूपी स्टेट कार्यालय के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य किया है। जहां से पड़चरकारी, अराजकतत्व पार्टी दफ्तर और कर्मचारियों एवं राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं। इनकी वजह से पार्टी को महानुरूपों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट कर पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए पार्टी को प्रमुख बैठक भी अपने निवास पर करने को मजबूर है। उन्होंने से सरकार से वर्तमान पार्टी कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। उन्होंने किसी भी पार्टी से गठबंधन करने की बात को भी सिरे से खारिज किया है।

युवाओं को शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर राज्य के नव-निर्माण के लिए आगे आना होगा : सुदेश महतो

रांची (हिंस)। आजसू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो हमेशा हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने को प्रेरित करता रहेगा। अंग्रेजों के शोषण, अत्याचार एवं गलत नीतियों के खिलाफ विगल फूंकने के साथ ही लोगों को गोलबंद कर अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाले शारङ्खी माटी के लाल शेर भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की श्रद्धा स्मरण अर्पित करता हूँ। वीर क्रांतिकारियों ने कुर्बानी के हृदय तक संघर्ष का मिसाल पेश किया है। उन्होंने कहा कि देश त्रणों है उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछवर कर दिया। भारत भूखंड के लिए जो कृत किया है यह हमेशा लोगों के जेहन में बना रहेगा। युवाओं को वीर शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर राज्य और देश के निर्माण में योगदान देना चाहिए। सुदेश कुमार महतो ने सोमवार को चुटुपलू स्थित शहीद स्मरण पर शहीद शेर भिखारी और शहीद टिकैत उमराव सिंह की तस्वीर पर माल्यापण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सुदेश कुमार महतो शहीद टिकैत उमराव सिंह की जन्मस्थली

युवाओं को शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर राज्य के नव-निर्माण के लिए आगे आना होगा : सुदेश महतो

रांची (हिंस)। आजसू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो हमेशा हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने को प्रेरित करता रहेगा। अंग्रेजों के शोषण, अत्याचार एवं गलत नीतियों के खिलाफ विगल फूंकने के साथ ही लोगों को गोलबंद कर अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाले शारङ्खी माटी के लाल शेर भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की श्रद्धा स्मरण अर्पित करता हूँ। वीर क्रांतिकारियों ने कुर्बानी के हृदय तक संघर्ष का मिसाल पेश किया है। उन्होंने कहा कि देश त्रणों है उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछवर कर दिया। भारत भूखंड के लिए जो कृत किया है यह हमेशा लोगों के जेहन में बना रहेगा। युवाओं को वीर शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर राज्य और देश के निर्माण में योगदान देना चाहिए। सुदेश कुमार महतो ने सोमवार को चुटुपलू स्थित शहीद स्मरण पर शहीद शेर भिखारी और शहीद टिकैत उमराव सिंह की तस्वीर पर माल्यापण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सुदेश कुमार महतो शहीद टिकैत उमराव सिंह की जन्मस्थली

युवाओं को शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर राज्य के नव-निर्माण के लिए आगे आना होगा : सुदेश महतो

रांची (हिंस)। आजसू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो हमेशा हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने को प्रेरित करता रहेगा। अंग्रेजों के शोषण, अत्याचार एवं गलत नीतियों के खिलाफ विगल फूंकने के साथ ही लोगों को गोलबंद कर अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाले शारङ्खी माटी के लाल शेर भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की श्रद्धा स्मरण अर्पित करता हूँ। वीर क्रांतिकारियों ने कुर्बानी के हृदय तक संघर्ष का मिसाल पेश किया है। उन्होंने कहा कि देश त्रणों है उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछवर कर दिया। भारत भूखंड के लिए जो कृत किया है यह हमेशा लोगों के जेहन में बना रहेगा। युवाओं को वीर शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर राज्य और देश के निर्माण में योगदान देना चाहिए। सुदेश कुमार महतो ने सोमवार को चुटुपलू स्थित शहीद स्मरण पर शहीद शेर भिखारी और शहीद टिकैत उमराव सिंह की तस्वीर पर माल्यापण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सुदेश कुमार महतो शहीद टिकैत उमराव सिंह की जन्मस्थली

हस्तनिर्मित उत्पादों का करें अधिक से अधिक प्रयोग : सांसद लक्ष्मीकांत मेरठ

राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि हस्तनिर्मित उत्पादों का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इससे देश में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में सोमवार को मण्डलीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2024 में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेश तोमर और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आठ राज्यों के लगभग 100 प्रतिभागियों द्वारा अपनी इकाईयों को लगाकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में ऊर्जा वस्त्रों की बिक्री सर्वाधिक रही। प्रदर्शनी का राज्य मंत्री डॉ. सोमेश तोमर, सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मुख्य विकास अधिकारी नूदुर गोयल ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण खादी वस्त्र, चादर, पटियाला सूट एवं जूतियां रही।

राजस्थान / पंजाब / हरियाणा / जम्मू

जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन और कबूतर पकड़ा

जैसलमेर (हिंस)। राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर से भारत की सीमा में आए ड्रोन को सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने पकड़ा है। सीमा पार से आए ड्रोन के साथ कबूतर और पैराशूट का फटा हुआ कपड़ा भी बंधा था। ड्रोन के साथ बांधे गए कबूतर की मौत हो गई है। मामला जिले के सरहदी शाहगढ़ बल्च इलाके में बीएसएफ बटालियन की खारिया पोस्ट का बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन की डमी ड्रव्ह होने की संभावना जताई है। एक और पाकिस्तानी कबूतर को शाहगढ़ इलाके में पकड़े जाने की जानकारी मिली है। जैसलमेर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सोमवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

मोदी गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही अंतिम व्यक्ति को भी मिल रहा लाभ : सीपी जोशी

जयपुर (हिंस)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम के वचुअल प्रसारण के दौरान बगरू विधान सभा क्षेत्र स्थित नगर निगम जयपुर ग्रेटर जगतपुरा जोन ऑफिस में उपस्थित रहे और शिविर का अवलोकन कर लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बेरवा, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, प्रदेश महामंत्री जगवती सिंह छावा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बागडी, प्रदेश मंत्री रणजीत सिंह सोडाला, बगरू विधायक कैलाश वर्मा, मेयर डॉ. सोम्या गुर्जर, जयपुर शहर

अब नई गाड़ियों में सवार होंगे पंजाब सरकार के मंत्री, दो साल बाद मिली सीएम की मंजूरी

जिलाध्यक्ष राघव शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वचुअल जुड़कर संवाद स्थापित किया। इससे लोगों में जोश और ऊर्जा का संचार हुआ। केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को भी मिले इसके लिए मोदी गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच रही है और जनता इस गाड़ी का उत्साह के साथ स्वागत कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने पिछले दस सालों में जनहित के जितने काम किए हैं उतने कांग्रेस ने अपने साठ सालों में भी नहीं किए। मोदी सरकार की योजनाओं से देश लगातार मजबूत हो रहा है।

अब नई गाड़ियों में सवार होंगे पंजाब सरकार के मंत्री, दो साल बाद मिली सीएम की मंजूरी

जिलाध्यक्ष राघव शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वचुअल जुड़कर संवाद स्थापित किया। इससे लोगों में जोश और ऊर्जा का संचार हुआ। केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को भी मिले इसके लिए मोदी गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच रही है और जनता इस गाड़ी का उत्साह के साथ स्वागत कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने पिछले दस सालों में जनहित के जितने काम किए हैं उतने कांग्रेस ने अपने साठ सालों में भी नहीं किए। मोदी सरकार की योजनाओं से देश लगातार मजबूत हो रहा है।

अब नई गाड़ियों में सवार होंगे पंजाब सरकार के मंत्री, दो साल बाद मिली सीएम की मंजूरी

जिलाध्यक्ष राघव शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वचुअल जुड़कर संवाद स्थापित किया। इससे लोगों में जोश और ऊर्जा का संचार हुआ। केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को भी मिले इसके लिए मोदी गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच रही है और जनता इस गाड़ी का उत्साह के साथ स्वागत कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने पिछले दस सालों में जनहित के जितने काम किए हैं उतने कांग्रेस ने अपने साठ सालों में भी नहीं किए। मोदी सरकार की योजनाओं से देश लगातार मजबूत हो रहा है।

विरोधी को फंसाने के लिए मां ने रची थी बेटी के अपहरण की झूठी कहानी



फिरोजाबाद (हिंस)। थाना उत्तर पुलिस टीम ने अपनी ही बेटी के अपहरण की झूठी कहानी रचने वाली मां को सह अभियुक्त सहित गिरफ्तार किया है। मां ने यह योजना एक युवक को झूठा फंसाने के लिए बनाई थी। थाना प्रभारी उत्तर कुलदीप दीक्षित पुलिस टीम के साथ सोमवार को क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्होंने सूचना पर जलेसर रोड से करीब 50 मीटर पहले अपहरण की योजना में शामिल दो अभियुक्त एक्टर यादव व बेबी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्ता बेबी ने 02 जनवरी को थाना उत्तर पर अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने के संबंध में किशन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। विवेचना के दौरान संज्ञान में आया कि बेबी ने अपनी ही पुत्री को अभियुक्त हिमाचल व एक्टर के सहयोग से अगवा करवा कर झूठा मुकदमा किशन के विरुद्ध पंजीकृत करवाया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद अभियुक्त हिमाचल को दो दिन पूर्व पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। उसने पछुतावा में स्वयं एक एक्टर यादव तथा बेबी द्वारा मिलकर नाबालिग के अपहरण की योजना बनाकर किशन को झूठे आरोप में फंसाया था। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा है।

नई शिक्षा नीति को बनाया जाएगा रोजगारपरक : मूलचंद शर्मा

फरीदाबाद (हिंस)। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोमवार को ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (टीएएसटीआई) के प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम में समारोह कर्टन रेजर जारी किया। यहां उपस्थित युवा वैज्ञानिकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रोत्साहन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों के क्षेत्र में उपलब्धियों की एक विस्तृत श्रृंखला का जन्म मनाना और उत्साह करना है। आईआईएसएफ 2023 का विषय अमृतकाल में विज्ञान और

नए साल में पंजाब की भगवत मान संस्कार के मंत्री और नई गाड़ियों में सवार होंगे पंजाब सरकार के मंत्री, दो साल बाद मिली सीएम की मंजूरी

नए साल में पंजाब की भगवत मान संस्कार के मंत्री और नई गाड़ियों में सवार होंगे पंजाब सरकार के मंत्री, दो साल बाद मिली सीएम की मंजूरी

अमृतसर (हिंस)। पंजाब पुलिस ने 19 किलो हेरोइन बरामदगी मामले की गिरफ्तार करके 3.5 किलो हेरोइन और बरामद की है। इस केस में अब हेरोइन की कुल बरामदगी 22.5 किलो हो गई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया अमृतसर के गांव लाहौरिमल निवासी बलराज सिंह उर्फ काका, रांझे दी हेवेली निवासी अमोल सिंह उर्फ लालू और सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन तीन तस्करों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियों की संख्या 10 हो गई है। पुलिस ने इनके पास से 3.5 किलो हेरोइन के अलावा .30 बोर के 10 जिंदा कारतूस और 9 एएमएम के 9 जिंदा कारतूस समेत एक सफारी कार भी बरामद की है।

अमृतसर (हिंस)। पंजाब पुलिस ने 19 किलो हेरोइन बरामदगी मामले की गिरफ्तार करके 3.5 किलो हेरोइन और बरामद की है। इस केस में अब हेरोइन की कुल बरामदगी 22.5 किलो हो गई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया अमृतसर के गांव लाहौरिमल निवासी बलराज सिंह उर्फ काका, रांझे दी हेवेली निवासी अमोल सिंह उर्फ लालू और सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन तीन तस्करों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियों की संख्या 10 हो गई है। पुलिस ने इनके पास से 3.5 किलो हेरोइन के अलावा .30 बोर के 10 जिंदा कारतूस और 9 एएमएम के 9 जिंदा कारतूस समेत एक सफारी कार भी बरामद की है।

अमृतसर (हिंस)। पंजाब पुलिस ने 19 किलो हेरोइन बरामदगी मामले की गिरफ्तार करके 3.5 किलो हेरोइन और बरामद की है। इस केस में अब हेरोइन की कुल बरामदगी 22.5 किलो हो गई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया अमृतसर के गांव लाहौरिमल निवासी बलराज सिंह उर्फ काका, रांझे दी हेवेली निवासी अमोल सिंह उर्फ लालू और सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन तीन तस्करों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियों की संख्या 10 हो गई है। पुलिस ने इनके पास से 3.5 किलो हेरोइन के अलावा .30 बोर के 10 जिंदा कारतूस और 9 एएमएम के 9 जिंदा कारतूस समेत एक सफारी कार भी बरामद की है।



पब्लिक प्रॉविडेंट फंड-सुकन्या अकाउंट्स में जमा करें मिनिमम अमाउंट : 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने पर बंद हो जाएगा अकाउंट

नई दिल्ली।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। तय तारीख तक पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे नहीं डालने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव (बंद) हो सकते हैं। इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। हम आपको बता रहे हैं कि अकाउंट में आपको

कितना मिनिमम अमाउंट जमा करना होता है।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड - अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है यानी आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है। ऐसा न करने पर वरना आपका खाता बंद हो सकता है। इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको फिर से अकाउंट शुरू कराने के लिए जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना 50 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देना होगा। यानी, अगर आपने 2 साल पैसे नहीं डाले

तो एक साल के 50 रुपए के हिसाब से 100 रुपए जुर्माना देना होगा।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड से जुड़ी खास बातें - पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड खातों में जमा राशि पर फिलहाल 7.1 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। जमा पर ब्याज कैलकुलेशन सालाना आधार पर होता है। यानी, इसे हर साल मूलधन में जोड़ा जाता है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम में रिटर्न, मैच्योरिटी राशि और ब्याज तीनों पर इनकम टैक्स छूट मिलती है। अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं, जिसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड

स्कीम में मिनिमम 500 रुपए से अकाउंट खलवाया जा सकता है। एक साल में अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना - सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट है तो आपको हर वर्ष में मिनिमम 250 रुपए जमा करने होते हैं। अगर आप यह पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर अभी 8.2 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। इसके तहत अकाउंट किसी बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र से पहले ही खोला जा सकता है।

न्यूज़ ब्रीफ

अलास्का एयर के विमान में हुए हादसे के बाद भारतीय विमानों की जांच का काम पूरा, डीजीसीए ने ये कहा



नई दिल्ली। डीजीसीए ने बताया है कि अलास्का एयरलाइंस के विमान में बीते पांच जनवरी को हुए हादसे के बाद भारतीय विमानन कंपनियों को बोइंग विमानों की जांच कराने का निर्देश दिया गया था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दरअसल, पांच जनवरी को अलास्का एयर के बोइंग 737 मैक्स 9 विमान में हादसे के बाद डीजीसीए ने यह निर्देश जारी किया था। अलास्का एयर के विमान का आपातकालीन दरवाना उड़ान के दौरान उखड़कर अलग हो गया था, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। एहतियाती उपाय के रूप में, डीजीसीए ने 6 जनवरी 2024 को बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों का संचालन करने वाले भारतीय ऑपरेटर्स को 7 जनवरी 2024 तक सभी ओवर-विंग आपातकालीन निकासों के संचालन और उचित जांच का निर्देश दिया था। इसके तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस के चार, स्पाइसजेट के आठ और अकासा एयर के 20 बोइंग 737-8 मैक्स विमानों की जांच संतोषजनक ढंग से की गई। डीजीसीए ने बताया कि अलास्का एयर के बेड़े में एक बोइंग 737-8200 विमान शामिल है, जिसमें एक मिड-केबिन डोर है, उसकी की भी परिचालन जांच संतोषजनक ढंग से संपन्न कर ली गई है।

इन आठ विकल्पों को अपनाकर बचा सकते हैं भारी-भरकम कर

नई दिल्ली। अगर आप नौकरपेशा हैं तो कर बचाने के लिए निवेश से जुड़ा दरतावेज ऑप्शन में जमा करना जरूरी होता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दरतावेज जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2024 है। आमतौर पर कर बचत के लिए सबसे पहला विकल्प जो सामने आता है, वह है आयकर कानून की धारा 80सी। इसके तहत, आप 1.50 लाख रुपये तक की कर बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, कई ऐसे विकल्प भी हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1.50 लाख रुपये के अलावा भी कर बचा सकते हैं। पेश है कालीचरण की रिपोर्ट 80सी - इस धारा के तहत आप 1.50 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। इसके लिए आप राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। इससे ऊपर भी 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं। इस तरह, कुल 2 लाख रुपये तक बचत कर सकते हैं। 80डी - स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट का दावा कर सकते हैं। फिक्सी कर छूट मिलेगी, यह इस बात पर निर्भर है कि फिक्सी में कौन-कौन शामिल है व उनकी उम्र क्या है, इस तरह से आप 25,000 रुपये से एक लाख रुपये तक कर बचा सकते हैं। 80ई- इसके तहत एजुकेशन लोन के ब्याज के हिस्से पर कर छूट पा सकते हैं। यह छूट माता-पिता और बच्चा कोई भी ले सकता है, यह इस पर तय होगा कि कौन कौन चुका रहा है। 80ईई - इसके तहत पहला घर खरीदने पर होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट मिलती है। बशर्त इसके पहले आपके नाम पर कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। इस धारा के तहत 50,000 रुपये तक अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं, जो धारा-24 के तहत मिलने वाली छूट से अलग है। यानी पहली बार घर खरीदने वालों को एक साल में कम-से-कम 2.50 लाख रुपये तक की छूट होम लोन के ब्याज पर मिल जाती है। शर्त है...प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपये से कम हो और कर्ज 35 लाख रुपये या इससे कम हो। 80जे - वेतनभोगी हैं और कंपनी एचआरए देती है तो किराये पर कर छूट पा सकते हैं। एचआरए नहीं मिलने की स्थिति में आप घर के किराये पर छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। 80टीटीए - बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी छूट पा सकते हैं। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार अधिकतम 10,000 रुपये तक छूट पा सकता है। शर्त है कि बचत खाता बैंक, को-ऑपरेटिव सोसायटी या डाकघर में होना चाहिए। 80डीडी किसी दिय्याग की देखरेख पर होने वाले कर को इस धारा के तहत बचत कर सकते हैं। 75,000 से लेकर 1.25 लाख रुपये तक छूट मिलती है। छूट कितनी मिलेगी, यह दिय्यागज की दिय्यागता पर निर्भर करता है। धारा-24 - होम लोन पर दो तरह से कर छूट का दावा कर सकते हैं। प्रिंसिपल राशि पर 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये के साथ ब्याज पर धारा-24 के तहत भी छूट ले सकते हैं। इस तरह, आप अधिकतम 2 लाख रुपये तक छूट पा सकते हैं।

फ्लिपकार्ट 1,500 एम्प्लॉइज की छंटनी करेगी

वर्कफोर्स में से यह कटौती कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी के तहत परफॉर्मंस के आधार पर होगी

नई दिल्ली।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट एम्प्लॉइज की छंटनी करने का प्लान बना रही है। फ्लिपकार्ट कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में परफॉर्मंस के आधार पर अपनी वर्कफोर्स में से 5-7 प्रतिशत की कटौती करेगी।

छंटनी का असर 1100-1500 एम्प्लॉइज पर पड़ेगा

कंपनी की यह छंटनी मार्च-अप्रैल 2024 तक समाप्त होने की उम्मीद है। इससे पहले कंपनी ने एक साल तक नियुक्ति पर रोक लगाने का फैसला किया था। फ्लिपकार्ट पिछले दो सालों से परफॉर्मंस के आधार सालाना नौकरियों में कटौती कर रही है। मित्रा को छोड़कर कंपनी की मौजूदा वर्कफोर्स 22,000 है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब इस छंटनी का असर 1100-1500 एम्प्लॉइज पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के 2024 के रोडमैप के साथ रिस्ट्रक्चरिंग को अगले महीने सौनिपर एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में फाइनलाइज किया जाएगा। छंटनी के बावजूद कंपनी के अपने आईपीओ को 2024 तक डिले करने के प्लान में कोई बेंच नहीं हुआ है।

विलयरट्रिप के साथ कोलंबोरेशन करेगी फ्लिपकार्ट

पेटिएम, अमेजन और मीशो जैसी अन्य कंपनियों की भी हाल ही में कॉस्ट-कटिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की है। फ्लिपकार्ट विलयरट्रिप के साथ कोलंबोरेशन पर भी विचार कर रही है, जिसमें अडाप्टी ग्रुप की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विलयरट्रिप एयरलाइन्स बुकिंग्स पर फोकस करती है। यह अपने होटल बिजनेस में फ्लिपकार्ट से निवेश बढ़ा सकती है। वॉलमार्ट और अन्य कंपनियों से चल रही 1 बिलियन डॉलर की फंडिंग से फ्लिपकार्ट के स्ट्रेटिजिक प्लान्स को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

अपनी पेशकशों में विविधता ला रही है कंपनी

ग्रुप सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति की लीडरशिप में



अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ाने के लिए उच्च महंगाई को नीचे लाना जरूरी, तभी हाथ में आएगा पैसा

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था खपत में कम वृद्धि की चुनौती का सामना कर रही है। इसकी प्रमुख वजह है उच्च महंगाई का निम्न आय वर्ग के लोगों को प्रभावित करना। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री देवेन्द्र कुमार पंत ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था अब सामान्य से कम मानसून और उच्च वैश्विक तेल कीमतों के दोहरे झटके से निपटने की जुझारू क्षमता रखती है। लेकिन, खपत बढ़ाने के लिए महंगाई को नीचे लाना एक बड़ी चुनौती है। महंगाईघटन पर ही लोगों के हाथ में खर्च के लिए अधिक पैसा आएगा। पंत ने कहा, महंगाई में एक फीसदी अंक की कमी से जीडीपी में 0.64 फीसदी की वृद्धि होगी या पीएफसीडी (निजी अंतिम उपयोग खर्च) में 1.12 फीसदी अंक की वृद्धि होगी। अगर महंगाई को एक फीसदी तक कम किया जा सकता है तो यह जीत की स्थिति होगी। पीएफसीडी व्यक्तियों की ओर से व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च को दर्शाता है। पंत ने कहा, आर्थिक वृद्धि सरकारी खर्च से आगे बढ़ती है। खर्च के लगातार उच्च स्तर पर रहने से राजकोषीय घाटे और कर्ज के लिए जोखिम पैदा होता है। इससे ब्याज दरें ऊंची बनी रहेंगी।

फ्लिपकार्ट अपनी पेशकशों में विविधता ला रही है। कंपनी का टारगेट किराना, सोशल कॉमर्स (शॉप्सी)

और फिनटेक (सुपर.मनी) पर फोकस करके अपने यूजर बेस का विस्तार करना है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा, 2023-24 में 7.3 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली।

चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अग्रिम अनुमान की गणना में 2.59 लाख करोड़ रुपये की विसंगतियां रही हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने यह जानकारी दी है। इससे पहले 2022-23 में जीडीपी गणना में 3.80 लाख करोड़ और 2021-22 में 4.47 लाख करोड़ रुपये की विसंगति रही थी। एनएसओ ने बीते राष्ट्रीय खातों का अपना पहला अग्रिम अनुमान जारी किया था। इसमें बताया गया था कि 2023-24 में अर्थव्यवस्था 7.3 फीसदी की दर से बढ़ेगी। 2022-23 में वृद्धि दर 7.2 फीसदी रही थी। जीडीपी ऑर्कडों में विसंगति उत्पादन और खर्च पद्धति के तहत राष्ट्रीय आय में अंतर को बताती है।

सूचना में देरी राष्ट्रीय खातों में गड़बड़ी की वजह

विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य और विभिन्न



एजेंसियों की सूचना देने में देरी से राष्ट्रीय खातों में हमेशा कुछ विसंगतियां रहेंगी। चालू वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों में उच्च स्तर की विसंगतियों पर विशेषज्ञों ने कहा, आंकड़ों को यथासंभव सटीक रूप से दिखाने के लिए विसंगतियों को दर्शाया जाता है। हालांकि, सरकार इसे कम करने का हरसंभव प्रयास करती है।

जीवीए 6.9 फीसदी रहने का अनुमान

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय खातों के एनएसओ के पहले अनुमान से यह भी पता चला है कि देश का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2023-24 के दौरान 6.9 फीसदी की दर से बढ़ेगा, जो 2022-23 के 7 फीसदी से कम है। हालांकि, इस वित्त वर्ष में घरेलू जीडीपी की वृद्धि दर 7.3 फीसदी रहने का अनुमान है, जो 2022-23 में 7.2 फीसदी रही थी। जीडीपी जीवीए और करों का शुद्ध योग है। देश में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दृष्टि से राष्ट्रीय खातों की गणना महत्वपूर्ण हो जाती है।

सोने और चांदी की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई, सोने के वायदा भाव 62,350 और चांदी लगभग 72,300 रुपए

नई दिल्ली।

इस सप्ताह सोने और चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। दोनों के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 62,350 रुपए और चांदी के वायदा भाव 72,300 रुपए के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। लेकिन बाद में इनकी कीमतों में सुस्ती देखी जाने लगी।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 46 रुपए की गिरावट के साथ 62,511 रुपए के भाव पर खुला।



फिलहाल यह कॉन्ट्रैक्ट 197 रुपए की गिरावट के साथ 62,360 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। वहीं एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रैक्ट 130 रुपए की गिरावट के साथ 72,457 रुपए के भाव पर खुला। फिलहाल यह कॉन्ट्रैक्ट 305 रुपए की गिरावट के साथ 72,282 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव तेजी के साथ खुले। हालांकि बाद में भाव सुस्त पड़

गए। कमिक्स पर सोना 2,052.60 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,049.80 डॉलर था। फिलहाल यह चांदी का बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रैक्ट के साथ 2,046.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कमिक्स पर चांदी के वायदा भाव 23.38 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 23.31 डॉलर था। फिलहाल यह 0.08 डॉलर की गिरावट के साथ 23.23 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

2023 में मिडकैप और स्मॉलकैप ने दिया अच्छा रिटर्न, इस साल लार्जकैप की बारी

नई दिल्ली।

इंफ्लेक्शन श्रेणियों में निवेशक जिसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है लार्ज और मिडकैप। पिछले साल यानी 2023 में मिडकैप और स्मॉलकैप ने अच्छा रिटर्न दिया। इस साल लार्जकैप की बारी है। लार्जकैप और मिडकैप में निवेश पर रिटर्न व जोरिबम का गणित बताती अजीत सिंह की रिपोर्ट।

लार्ज व मिडकैप फंड में बेहतर कमाई की उम्मीद

म्यूचुअल फंड की लार्जकैप और मिडकैप योजना बाजार में सूचीबद्ध शीर्ष-250 कंपनियों में निवेश करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंपनियां होती हैं, जो प्रबंधन, बहीखाते और कारोबार के लिहाज से काफी मजबूत होती हैं। इसलिए, बेहतर रिटर्न हासिल करने के उद्देश्य के लिहाज से इन कंपनियों में निवेश करने वाला यह एक बेहतर फंड है। यह मूलरूप से इंडिटी केंद्रित फंड है। फंडस्कीम लार्ज और मिडकैप कंपनियों में से प्रत्येक में 35 फीसदी निवेश करती है। पिछले साल लार्जकैप का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन इस साल इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।



निवेशकों के लिए अतिरिक्त लाभ का लक्ष्य

पोर्टफोलियो निर्माण के लिए फंड मैनेजर टॉप-डाउन और बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाते हैं। फंड मैनेजर के पास स्मॉलकैप निवेशों के लिए असरवादी दृष्टिकोण अपनाने की भी सुविधा है। इसका लक्ष्य निवेशकों के लिए अतिरिक्त लाभ

प्राप्त करना है। इसका प्रमाण आईसीआईसीआई फ्लूइडिथल लार्ज एंड मिडकैप फंड में देखा जा सकता है। इस फंड का पिछले 25 वर्षों से अधिक का ट्रेक रिकॉर्ड है। इसने निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति का निर्माण किया है।

हर साल 18.34 फीसदी दर से मिला रिटर्न

अगर किसी निवेशक ने जुलाई, 1998 (फंड की शुरुआत) में एक लाख रुपये एकमुश्त निवेश किया होगा तो वह रकम 30 नवंबर, 2023 तक 72.15 लाख हो गई। यानी 18.34 फीसदी सीएजीआर की दर से रिटर्न मिला है। इस दौरान बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 टीआरआई में 14.64 फीसदी सीएजीआर रिटर्न मिला है, जो एक लाख का सिर्फ 32.18 लाख ही बन सका। पिछले एक और तीन वर्षों में इस फंड ने क्रमशः 20.56 फीसदी व 27.66 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस दौरान बेंचमार्क ने 19.92 फीसदी और 23.34 फीसदी का रिटर्न दिया। लार्जकैप व मिडकैप का औसत रिटर्न क्रमशः 18.83 फीसदी और 21.96 फीसदी रहा था।

रुपया नौ पैसे की तेजी के साथ 83.06 प्रति डॉलर

मुंबई। स्थानीय शेयर बाजारों के सकारात्मक रुख तथा विदेशी कोषों के प्रवाह के बीच शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले रुपया नौ पैसे बढ़कर 83.06 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि मजबूत अमेरिकी मुद्रा और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से रुपय का लाभ सीमित रहा। अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.09 पर खुला। बाद में यह 83.04 के स्तर को छूने के बाद 83.06 पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले बंद से नौ पैसे की बढ़त है। रुपया 83.15 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह अन्य मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी मुद्रा का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.09 प्रतिशत बढ़कर 102.22 पर कारोबार कर रहा था।

इंफ्लेक्शन का बेहतर विकल्प

लंबी अवधि में इच्छित वित्तीय नतीजों के लिए उन बचतों को उपलब्ध विभिन्न निवेश साधनों में विवेकपूर्ण ढंग से लगाना अनिवार्य है। पारंपरिक निवेश विकल्पों, सावधि जमा, म्यूचुअल फंड और कई अन्य विकल्पों के बीच निवेशकों के पास आज कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। इंफ्लेक्शन विकल्पों की तलाश कर रहे निवेशक के लिए लार्ज और मिडकैप फंड ही सकारात्मक हैं। निदेशक पंकज सिद्धाना फंड का वर्तमान फोकस आर्थिक सुधार से लाभान्वित शेयरों व क्षेत्रों पर है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका निवेश आशाजनक रणनीतियों के अनुरूप हो और भविष्य के लिए तैयार रहे।



आईसीसी ने प्रतिबंध हटाने वाली ख्वाजा की अपील को ठुकराया

मेलबर्न। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को कराटा ब्रुटका दिया है। आईसीसी ने आर्मबैंड (काली पट्टी) पहनने के कारण ख्वाजा पर लगाये लगे प्रतिबंध को हटाने की अपील ठुकरा दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार ख्वाजा ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ हुई तीन मैचों की सीरीज के शुरूआती टेस्ट के दौरान गाजा में हिंसा में फंसे फलस्तीनी लोगों के समर्थन में काली

पट्टी बांधी थी जिसके कारण आईसीसी ने उन्हें तब फटकार भी लगाई थी क्योंकि उन्होंने इसके लिए आईसीसी से अनुमति नहीं ली थी। इसके बाद उन्होंने प्रतिबंध हटाने की अपील की थी जिससे आईसीसी ने मानने से इंकार कर दिया है। आईसीसी के नियमों के तहत क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान किसी तरह के राजनीतिक, धार्मिक या नस्लवादी संदेश को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। खिलाड़ी पूर्व खिलाड़ियों, परिजनों

या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के निधन पर पहले से अनुमति लेकर काली पट्टी बांध सकते हैं। आईसीसी के प्रवक्ता ने तब कहा था, 'आईसीसी और उसके नियमों का सम्मान करता हूँ। मैं इस फैसले को चुनौती दूंगा। आर्मबैंड को लेकर मैच में बांध पर काली पट्टी बांधी थी। यह अन्य उल्लंघन श्रेणी में आता है और पहला अपराध होने पर उन्हें फटकारा जाएगा।' इस क्रिकेटर ने कहा कि आईसीसी ने पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन

न्यूज़ ब्रीफ

रिबाकीना ने सर्बालेका को हरा खिताब जीता, पुरुषों में गिगोर दिमित्रीव बने चैंपियन



ब्रिसबेन। ब्रिसबेन इंटरनेशनल में कराखस्तान की एलीना रिबाकीना ने सर्वोच्च वरीय आर्यन सर्बालेका को 6-0, 6-3 से हराकर अपना छठा डब्ल्यूटीए खिताब जीता। रिबाकीना के खिलाफ पिछले सात में से पांच मुकामले जीतने वाली सर्बालेका के पास फाइनल में चौथी वरीय खिलाड़ी के खेल का कोई जवाब नहीं था। इन्होंने दोनों खिलाड़ियों के बीच बीते वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल हुआ था, जिसमें सर्बालेका को जीत मिली थी। इस हार के साथ ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सर्बालेका का लगातार 15 जीत का सिलसिला भी थम गया। पुरुष एकल के फाइनल में छठे वरीय बुल्गारिया के गिगोर दिमित्रीव ने सर्वोच्च वरीय डेनमार्क के होल्गर रुने को 7-6 (5), 6-4 से हराकर खिताब जीता। दिमित्रीव छह साल पहले यहां विजेता बने थे। दूसरी ओर, अमेरिकी ओपन चैंपियन 19 वर्षीय कोको गॉफ ने लगातार दूसरे वर्ष ऑकलैंड क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया। सर्वोच्च वरीय अमेरिकी ने फाइनल में बीते वर्ष मां बनने के बाद वापसी करने वाली यूक्रेन की एलीना स्वितोलिना को तीन सेटों के संघर्ष में 6-7 (4), 6-3, 6-3 से पराजित किया। कोको ने टूर्नामेंट में पहली बार सेट गंवाया। यह पहली बार है जब कोको ने अपने करियर में किसी टूर्नामेंट के खिताब की रक्षा की है। कोको जर्मनी की जुलिया गोरजेस (2018, 19) के बाद यहां लगातार चैंपियन बनीं वाली पहली खिलाड़ी हैं। वहीं पेटि फेडिक (1988, 89) के बाद ऐसा करने वाली यह पहली अमेरिकी बनीं। कोको ने रिवालिंजा पर जीत के बाद कहा कि मां बनने के बाद इतनी तेजी से उच्च स्तर पर वापसी करना प्रेरणादायक है।

ओडिशा जगर्नॉट्स अल्टीमेट खो खो सत्र 2 में पहले स्थान पर पहुंची



कटक। ओडिशा जगर्नॉट्स यहां जारी अल्टीमेट खो खो की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गयी है। ओडिशा जगर्नॉट्स ने सत्र 2 के एक अहम मुकामले में तेलुगु योद्धाओं को 35-27 से हराया। ओडिशा की ओर से दिलीप खांडवी, आंकर सोनवणे और अविनाश देसाई सभी ने छह-छह आक्रमण अंक हासिल किये। इससे ओडिशा टीम मैच पर हावी रही। ओडिशा ने दिलीप खांडवी, गौतम एमके और निखिल सोडाव के अपने पहले बैच के साथ पिच पर तीन मिनट और 32 सेकंड तक जमे रहने और तीन ड्रीम रन अंक हासिल करने के साथ ही टर्न 1 की अच्छी शुरुआत की। फिर रोहन सिगाडे ने तेलुगु योद्धाओं का विफल कर दिया। इस प्रकार टीम ने अजेय रहकर एक ड्रीम रन अंक हासिल किया। टर्न 1 के अंत में तेलुगु योद्धाओं की बढ़त बंदवाव नहीं आयी। ओडिशा ने तेलुगु योद्धाओं के आक्रमण को विफल करते हुए पहले बैच को एक मिनट और 37 सेकंड में वापस भेज दिया। उनके दूसरे बैच ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और एक मिनट और 48 सेकंड तक मैच पर रहे। बैच 3 ड्रीम रन पॉइंट के पंद्रह सेकंड के भीतर आ गया पर इससे गति में कोई बदलाव नहीं आया। ओडिशा जगर्नॉट्स ने दूसरी पारी में 23-10 की मजबूत बढ़त के साथ शुरुआत की। टर्न 3 में तेलुगु योद्धाओं के लिए हालात नहीं बदले। ओडिशा जगर्नॉट्स का आक्रमण सोनवणे, दीपेश मोरे और निखिल बी का पहला बैच मैच पर तीन मिनट और 57 सेकंड तक चला और दो ड्रीम रन अंक हासिल किए। उनका दूसरा बैच अधिक समय तक नहीं टिक सका लेकिन उनके तीसरे बैच के दो सदस्य अजेय रहे और ओडिशा जगर्नॉट्स ने अंतिम मोड़ तक 25-24 की बढ़त बना ली। उनके हमलावरों को मैच खत्म करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

मेरे लिए सहवाग को गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल रहा : मुरलीधरन

नई दिल्ली। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने कहा है कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग को गेंदबाजी करने में उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मुरलीधरन ने सहवाग की जमकर प्रशंसा की है। वहीं प्रशंसकों को उम्मीद थी कि मुरलीधरन महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम लेंगे पर ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले सहवाग भी कई बार यह बात कह चुके हैं कि उन्हें भी अपने करियर के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल मुरलीधरन को खेलने में ही आती थी। सहवाग ने एक बार कहा था कि उनको मुरलीधरन की गेंदबाजी पर आउट होने का डर लगा रहता था। सहवाग ने कहा कि शोएब अख्तर, ब्रेट ली जैसे गेंदबाजों के खिलाफ उनको कभी भी आउट होने का डर नहीं लगता था पर मुरलीधरन की गेंदबाजी के समय वह डरे हुए रहते थे।

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान टी20 में रोहित-कोहली की वापसी राहुल, अख्यर और जडेजा बाहर

मुंबई। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। वे पिछले टी-20 वर्ल्ड कप के बाद पहला टी-20 इंटरनेशनल खेलेंगे। रोहित के अलावा, विराट कोहली और शुभमन गिल की भी वापसी हुई है, जबकि केएल राहुल, श्रेयस अख्यर, रवींद्र जडेजा को टीम में जगह नहीं दी गई है। सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और ऋराज गायकवाड को चोट के कारण बाहर रखा गया है। ये सभी अपनी-अपनी चोट से उबर नहीं पाए। 11 जनवरी से शुरू हो रही सीरीज टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से अहम है। यह जून में होने जा रहे टी-20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की आखिरी बाइलेटल सीरीज है।



राह है भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, विलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, संजू समसन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अशदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार। रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, विलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, संजू समसन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अशदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार।

टी-20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी टी-20 सीरीज

टी-20 वर्ल्ड कप से पहले भारत 3 ही टी-20 मैच खेलेगा। तीनों मुकामले अफगानिस्तान से होंगे। इसके बाद भारत एंग्लैंड से 5 टेस्ट खेलेंगे और फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा। आईपीएल के मई के तीसरे सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। टूर्नामेंट के ठीक बाद एक जून से ही वेस्टइंडीज और अमेरिका में टी-20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा।

आलराउंडर के विकल्प के रूप में टीम में रखा गया है।

आलराउंडर के विकल्प के रूप में टीम में रखा गया है। युवा प्रेस अटैक पर भरोसा जताया है। अफगानों के खिलाफ होम सीरीज में अशदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार को तिकड़ी पेश अटैक करेगी। टीम में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे नाम नहीं हैं।

कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मुकामले पर घने कोहरे की मार पहले दिन खेला गया सिर्फ छह ओवर का मुकामला

जम्मू। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के माध्यम से बीसीसीआई की पहली बार घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता का भले ही जम्मू यूनिवर्सिटी का मैदान पहली बार साक्षी बन गया लेकिन घने कोहरे की वजह से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के बीच पहले दिन सिर्फ छह ओवर का मुकामला संभव हो सका।



अचिंत महाजन और विशाल कुमार को तीन, दो और एक ओवर खालने का मौका मिला। इन खिलाड़ियों ने लिया भाव। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से हिमाचल के खिलाफ कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में शिवांग शर्मा, मुसेफ एजाज, काजी जूनैद मसूद, कवल प्रीत सिंह, विशाल कुमार, बसित बशीर, मनित, आर्य ठाकुर, कन्हैया वधावन, वंशज शर्मा और अचिंत महाजन भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मुदतु, कुशल पाल, योगदीप एस ठाकुर, आर्यव्रत शर्मा, दीपेंद्र सिंह राणा, अमनप्रोत वी सिंह, वैभव एस कालटा, ऋक्षिक वी कुमार, हिमांशु बोक, दिवेश आर शर्मा और चिराम एम शर्मा भाग ले रहे हैं।

घने कोहरे के कारण आधे घंटे ही घना खेल


जम्मू यूनिवर्सिटी में चार दिवसीय कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी का पहला मुकामला शुरू होना था लेकिन घने कोहरे की वजह से मुकामला दोपहर बाद ही शुरू हो सका और सिर्फ आधे घंटे के इस खेल में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के गेंदबाजों को सिर्फ छह ओवर ही खालने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के कप्तान एवं विकेटकीपर शिवांग शर्मा ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया।

हिमाचल ने 6 ओवर में बनाए 23 रन

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने पहले दिन कुल छह ओवर के मुकामले में बिना कोई विकेट गंवाकर 23 रन बना लिए हैं। कुशल पाल 19 और योगदीप एस ठाकुर 4 नाबाद रन पर खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बसित बशीर,

संन्यास के बाद कोच बनना चाहते हैं वार्नर, आईपीएल के कारण भविष्य में छीटाकशी समाप्त होना तय

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर संन्यास के बाद अब कोच बनाना चाहते हैं। वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीस्ट के साथ ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा दिया। एकरिवेसीय से संन्यास की घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी हालांकि वह टी20 लीग में खेलते रहेंगे। वार्नर ने इसके साथ ही ये भी कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसी घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने से खिलाड़ियों में दोस्ती बढ़ती है। ऐसे में अगले एक दशक के अंदर क्रिकेट से छीटाकशी समाप्त होना तय है। इस 37 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने शनिवार को सिडनी में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला।



वार्नर ने कहा, 'मेरी भविष्य में कोचिंग से जुड़ने की इच्छा है। इसके बाद मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले मुझे अपनी पत्नी से बात करनी होगी कि क्या मुझे कुछ और दिन तक घर से बाहर रहने की अनुमति है।' उन्हें साल 2018 में केपटाउन में गेंद से छेड़छाड़ करने के मामले में निलंबन भी झेलना पड़ा था। इससे पहले तक उन्हें विरोधी खिलाड़ियों के प्रति आक्रामक रवैया अपनाने के लिए जाना जाता था। ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रकरण के बाद अपनी खेल संस्कृति में बदलाव किया और खिलाड़ियों ने अपना रुख बदलने कहा। वहीं सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इस सीरीज के पहले दावा किया था कि वार्नर के करियर के

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर पहली टी20 सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम

मुंबई। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 मुकामले में खेलने उतरेगी। ये सीरीज अभी तक 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में भारतीय टीम का लक्ष्य इस मैच को जीतकर पहली बार घरेलू धरती पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीतना रहेगा।

स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी के लिए जर्मनी जायेंगे सूर्यकुमार, आईपीएल के शुरुआती सत्र से बाहर रहेंगे

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी के लिए जर्मनी जाएंगे। इसी कारण सूर्यकुमार अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज से भी बाहर रहेंगे। इसके अलावा वह घरेलू सत्र और आईपीएल के शुरुआती मैचों में भी नहीं खेल पायेंगे। सूर्यकुमार को हाल ही में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी के लिए जर्मनी जाना पड़ा था। राहुल ही अब चोट के कारण कुछ महीनों के लिए खेल से बाहर थे। बोर्ड की ओर से एक अधिककारी ने कहा, जून में टी20 विश्व कप को देखते हुए सूर्यकुमार को ठीक होने के लिए पूरा समय दिया जाएगा। वह टी20 विश्व कप में भारत की संभावनाओं को देखते हुए बेहद अहम खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स हर्निया कम्प का मतलब निचले पेट के क्षेत्र में आपकी मांसपेशी, लिगामेंट या टेंडन का टियर या मोच आना है। स्पोर्ट्स हर्निया उन लोगों को अधिक होता है जो खिलाड़ी होते हैं।

मुंबई। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 मुकामले में खेलने उतरेगी।

ये सीरीज अभी तक 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में भारतीय टीम का लक्ष्य इस मैच को जीतकर पहली बार घरेलू धरती पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीतना रहेगा।

झेलनी पड़ी। भारतीय टीम के लिए इस सीरीज में हरमनप्रीत के फॉर्म को लेकर चिन्ता बनी हुई है।

हरमनप्रीत सभी प्रारूपों में पिछले 10 मैच में अर्धशतक नहीं लगा पायी है। वह पिछली 11 पारियों में से सात बार दो अंकों तक भी नहीं पहुंची है। दूसरे मैच में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा जीती थी। इस बार भारत ने पहले मैच में अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन किया था हालांकि वह टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं रही। दीप्ति ने 27 गेंद में 31

रन बनाकर भारत को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के शुरुआती दो विकेट लेकर उभरे संकट में डाल दिया था। अब दीप्ति से तीसरे मैच में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम भी इस मैच में जीत के लिए पूरी ताकत लगा देगी। एलिसा हीली अपनी कप्तानी में टीम को जीत दिलाकर साल की अच्छी शुरुआत करना चाहेंगी। अब तक हुए शुरुआती दो टी20



तन और मन सेहतमंद रखे जाँगींग...




ज्यादातर लोग कम खाने-पीने तथा समय से उठने-जागने को ही फिट रहने की गारंटी समझते हैं। यह सोच ठीक नहीं है। धीमी गति से जाँगींग एक ऐसा व्यायाम है जो सभी व्यक्ति कर सकते हैं। यह भी फिट रहने के लिए एक ऐसा व्यायाम है, जिसमें न तो किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है और न ही अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। आप किसी भी उम्र के हों, पैदल चलना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। जाँगींग से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही प्राप्त होता है, अपितु आपका सौंदर्य भी बरकरार रहता है। जाँगींग आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और साथ ही नकारात्मक सोच भी आपसे दूर रहती है। आइए जानते हैं जाँगींग के कुछ अन्य स्वास्थ्य लाभ।

जाँगींग करने के कई फायदे हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा है अच्छी सेहत पाना। ज्यादातर लोग अपने को फिट बनाए रखने के लिए खाना छोड़ देते हैं या अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने कितना खा लिया? इस प्रकार का अपराध बोध उनके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। आप जितना ज्यादा व्यायाम करेंगे, उतना ज्यादा खा सकते हैं और अपराध बोध से मुक्त हो सकते हैं। यह भी फिट रहने के लिए एक ऐसा व्यायाम है, वाँकिंग से का एक फायदा यह भी है कि आप अपने की प्रसन्नचित महसूस करेंगे।

दिल बनाएँ मजबूत

जाँगींग से हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता में इजाफा होता है, जिससे हमारे शरीर के सभी अवयवों को सही प्रकार से



काम करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन मिलती है। इसके साथ ही जाँगींग दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर उसकी कार्यक्षमता में इजाफा करती है। इतना ही नहीं यह हमारे रक्तचाप को भी नियंत्रित करती है। साथ ही जाँगींग हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर हमें डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाती है।

अन्य स्वास्थ्य लाभ

जाँगींग से आपका मेटाबॉलिज्म तेजी से काम करता है इससे कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं। इससे आपको वजन घटाने में मदद मिलती है और आप एक बेहतर शरीर पा सकते हैं। इतना ही नहीं, पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी आसानी से कम नहीं होती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जाँगींग कूल्हों और पेट की चर्बी कम करने का असरदार तरीका है।

हाजमा बढ़ाएँ

हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ओवरवेट लोगों को भूख कम लगती है। जैसाकि हम जानते हैं कि जाँगींग से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे आपके शरीर को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा की इस कमी को पूरा करने के लिए आपको अधिक भोजन की जरूरत होती है। और तो और जाँगींग से आपके शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा अच्छी तरह फैल जाती है।

हड्डियाँ बनाये मजबूत

यह बात सच है कि जाँगींग आपको हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करती है। खासतौर पर हमारी कमर, कूल्हों और टांगों की मांसपेशियों और हड्डियों को इससे बहुत लाभ मिलता है। इतना ही नहीं जाँगींग से शरीर को काफी थकान हो जाती है, लेकिन हमें अच्छी नींद आती है।



तनाव दूर करें

जाँगींग हमारे शरीर में एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाती है। जिससे हमारी मनोदशा पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही जाँगींग के दौरान व्यक्ति को अपने साथ अकेले कुछ वस्तु बिताने का मौका मिलता है, जिससे वे अपनी समस्याओं के बारे में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। उन्हें अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए अतिरिक्त ताकत मिलती है। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित अथवा कुपित है, तो उसे इन नकारात्मक भावों को दूर करने के लिए तेज दौड़ लगानी चाहिए।

उम्र के असर से लड़ें

जाँगींग से हम उम्र के असर को भी कम कर सकते हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि जाँगींग हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत मिलती है। इसका सीधा असर हमारी उम्र पर पड़ता है। मजबूत मांसपेशियाँ और हड्डियाँ हमें लंबे समय तक जवाँ बनाये रखने के लिए जरूरी होती हैं।

कॉन्फिडेंस बढ़ाएँ

जाँगींग हमारे शरीर की ताकत में इजाफा करती है, जिससे आपमें बड़ी चुनौतियों का सामना करने का विश्वास आता है। इसके साथ ही यह आपका वजन कम करने और मांसपेशियों को मजबूत भी बनाती है, जिससे आत्मविश्वास में इजाफा होता है।

मन को प्रशिक्षित करें

क्योंकि जाँगींग करते समय व्यक्ति के सामने कई मुश्किलें आती हैं, वह अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे हासिल करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के सोच विचार से व्यक्ति को अपने जीवन में भी आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मानसिक रूप से तैयारी करने का मौका मिलता है।

सुधरता है व्यवहार

जाँगींग का यह लाभ शायद आपको न पता हो कि इससे आपके एटिट्यूड में सुधार होता है। जाँगींग के दौरान हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स नामक हॉर्मोन्स का खाल होता है, जो खुशी का अहसास करने में मदद करता है। इसलिए जाँगींग को अवसाद से निपटने का एक कारगर तरीका माना जाता है और कई डॉक्टर इसे अपनाते की सलाह भी देते हैं।

सुबह की दौड़ है फायदेमंद

सुबह की दौड़, शाम की दौड़ के मकाबले अधिक फायदेमंद होती है। इससे व्यक्ति को अधिक शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। सुबह-सवेरे लोगों के शरीर में

अधिक ऊर्जा होती है इसका इस्तेमाल वे दौड़ में कर सकते हैं। यह भी साबित हो चुका है कि जो लोग सुबह जाँगींग करते हैं, वे दिन भर में मिलने वाली चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

उपकरण की आवश्यकता नहीं

जाँगींग करने के लिए किसी खास उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक जोड़ी आरामदेह जूते की और एक जोड़ी आरामदायक पोशाक ही चाहिए। सुबह की सैर तेज गति से होनी चाहिए और रात को खाना खाने के बाद धीरे-धीरे टहलना चाहिए। प्रतिदिन सुबह नंगे पाँव घास पर चलने की आदत डालें।

नंगे पैर जमीन पर चलने से बाँड़ी पोश्चर ठीक रहता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। इससे आपकी कमर भी हमेशा सीधी रहती है। इस तरह चलने का संबद्ध एक्ज्यूशर के सिद्धान्त पर आधारित होता है इससे पैरों के तलवों के विभिन्न पार्ट्स पर सीधे दबाव पड़ता है।

डॉक्टर से परामर्श लें

अत्यन्त गर्म और ठंडे तापमान में जाँगींग करने से बचे। पैरों में ज्यादा पसीना आए तो पाउडर लगाकर जूते पहनें। इससे पैरों में से बदन नहीं आएगी। अगर आपको कोई हृदय सम्बंधित रोग या अन्य बीमारी है तो कृपया कोई भी फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य कर लें। जोर जबरदस्ती और ज्यादा शारीरिक ताकत से काम न लें।

अन्य स्वास्थ्य लाभ

जाँगींग से आपका मेटाबॉलिज्म तेजी से काम करता है, इससे कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं। इससे आपको वजन घटाने में मदद मिलती है और आप एक बेहतर शरीर पा सकते हैं। इतना ही नहीं, पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी आसानी से कम नहीं होती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जाँगींग कूल्हों और पेट की चर्बी कम करने का असरदार तरीका है।

जाँगींग करें फिट रहें

- जाँगींग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है।
- जाँगींग से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है तथा सभी अंगो तक ऑक्सीजन युक्त रक्त भरपूर मात्रा में पहुँचता है।
- हर रोज जाँगींग करने से बाँड़ी में नई ऊर्जा का संचार होता है।
- नियमित रूप से जाँगींग करने से शरीर की मांस पेशियाँ मजबूत होती हैं तथा आपके शरीर के जोड़ भी मजबूत होते हैं।
- नियमित जाँगींग से कैलोरी बर्न होती है और मोटापा तथा अन्य कई रोगों से मुक्ति मिलती है।
- जाँगींग करने से अच्छी नींद आती है। फेफड़ों को मजबूती मिलती है और साँस सम्बंधित बीमारियों से बचाव होता है।
- जाँगींग और सैर करने से शरीर में इन्सुलिन बने की प्रक्रिया में सुधार होता है जिससे ब्लड शुगर काबू में रहता है इसलिए डायबिटीज के मरीजों को रेगुलर वॉक करने की सलाह दी जाती है।

वजन घटाने के लिए पी रहे नींबू पानी

तो आपके लिए ये जानना है जरूरी

आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अगर वजन घटाना है तो एक गिलास गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीना चाहिए क्योंकि ये फेट काटने का काम करता है। पानी में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर पीने से डाइजेशन सही रहता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है साथ ही फोकस करने में भी मदद मिलती है। नींबू पानी न सिर्फ शरीर को हाइड्रेशन देता है बल्कि आपको तृप्त भी करता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि नॉर्मल वॉटर भी नींबू पानी की ही तरह फायदेमंद है। तो साफ है कि नींबू पानी और उसके फायदों के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। ऐसे में हम आपको नींबू पानी और उसकी मदद से वजन घटाने बारे में कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं।



सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने के ये हैं 6 अनूठे फायदे

कम कैलोरी

एक गिलास नींबू पानी में ज्यादा से ज्यादा 6 कैलोरी होती हैं। ऐसे में यह वजन घटाने के लिए कारगर ड्रिंक है। यहाँ तक कि अगर आप फलों के जूस और सोडा ड्रिंक की जगह नींबू पानी पीने लें तो आप एक दिन में लगभग 200 कैलोरी तक कम कर सकते हैं। जाहिर है कि नींबू पानी कैलोरी फ्री तो नहीं है, लेकिन इसे पीने से आप कैलोरी इन्टैक जरूर कम कर सकते हैं।

बढ़ाएँ मेटाबॉलिज्म

रिसर्च के मुताबिक अगर बाँड़ी अच्छी तरह हाइड्रेट हो तो इससे मेटाबॉलिज्म या माइटोकॉण्ड्रिया बेहतर ढंग से काम करती है। माइटोकॉण्ड्रिया को शांति गृह कहा जाता है क्योंकि शरीर में ऊर्जा पैदा करने का काम यही कोशिका करती है। नींबू पानी पीने से शरीर का

मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग रोजाना ढेर सारा पानी पीने की सलाह देते हैं।

बेहतर हाइड्रेशन

शरीर से गैर-जरूरी चीजों को बाहर निकालने के लिए उसे हाइड्रेट रखना चाहिए। इससे शरीर का तापमान भी सही रहता है। यहाँ तक कि अगर बाँड़ी सही से हाइड्रेट है तो इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। चूँकि नींबू पानी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए यह बाँड़ी को काफी हद तक हाइड्रेट रखता है।

बेवक्त की भूख से छुटकारा


अगर आप एक्सट्रा स्नैकिंग या हर वक्त कुछ न कुछ चबाने से बचना चाहते हैं तो नींबू पानी या नॉर्मल पानी पीना बेहतर विकल्प है। साल 2008 में की गई एक रिसर्च के

मुताबिक ब्रेकफास्ट से पहले आधा लीटर पानी पीने से आप लगभग 13 फीसदी कम कैलोरी लेते हैं।

वजन घटाने में मददगार

ऊपर दिए गए कारणों की वजह से नींबू पानी वजन घटाने में बेहद कारगर है। कई शोधों में यह साबित हो चुका है कि जो लोग ज्यादा पानी या नींबू पानी पीते हैं दूसरों की तुलना में उनका वजन तेजी से घटता है। कई अन्य शोधों में तो यहाँ तक कहा गया है कि सिर्फ हाइड्रेट या एक्सरसाइज करने वाले लोगों की तुलना में उन लोगों का वजन जल्दी घटता है जो ज्यादा पानी पीते हैं। जाहिर है कि नींबू पानी पीने के ढेरों फायदे हैं। लेकिन नॉर्मल वॉटर भी नींबू पानी जितना ही फायदेमंद है। खासकर वजन घटाने के मामले में दोनों ही अचूक और असरदार हैं।

बच्चों के सामने भूलकर भी न करें ये 6 चीजें



बच्चों के मन बहुत कोमल होते हैं और उन्हें हर वक्त प्यार और अटेंशन की दरकार होती है। वहीं, माता-पिता के ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ऑफिस के काम का प्रेशर और हर समय कुछ न कुछ निपटाने की जल्दबाजी में वो ये भूल जाते हैं कि वे अपने बच्चों को कुछ जरूरी चीजों से दूर रख रहे हैं। माता-पिता ये भूल जाते हैं कि बच्चों के सामने वो जो भी करते हैं उसका असर उनके कोमल मन पर भी पड़ता है। हालांकि ये असर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। लेकिन चाहे हालात कैसे भी हों कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें बच्चों के सामने कभी नहीं कहना चाहिए।

- झूठ**: आप बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसके कई वजहें हो सकती हैं। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब करने के लिए बहुत कुछ हो और किसी एक चीज पर फोकस कर पानी मुश्किल हो जाए। लेकिन चाहे कुछ भी हो बच्चों से झूठ बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चे इतने छोटे, मासूम और अनुभवहीन होते हैं कि वे समझ नहीं पाते हैं कि झूठ क्यों बोला गया। आपको एक झूठ उभर पाना या असर डाल सकता है कि इसका अंदाजा आपको तब होगा जब आपका बच्चा भी झूठ बोलना शुरू कर देगा।
- पार्टनर से झगड़ना**: पार्टनर पर भड़कना, गुस्सा करना, जोर से बोलना और हिंसक होने से बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। बड़े होने पर वो भी ऐसी ही आदतें अपना लेते हैं। एनआईसीईएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के सामने मारपीट करने और भड़कने से बड़े होकर वो भी अपने पार्टनर साथ के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करत हैं जैसे उनके माता-पिता एक-दूसरे के साथ करते थे।
- मजाक उड़ाना**: बच्चों के साथ मजाक करना या उनकी मासूमियत का मजाक उड़ाना भले ही आपको मजेदार लगे, लेकिन इन सबका आपके बच्चे पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। इससे बच्चे न सिर्फ खराब यादें बनाते हैं बल्कि काफी हद तक उनका आत्म विश्वास भी चकनाचूर हो जाता है।
- बच्चों से मार-पीट करना और भड़कना**: आपके बच्चे को आपकी देखभाल और प्यार की जरूरत होती है न कि गुस्से की। हो सकता है कि वो आपको गुस्सा दिलाए लेकिन आपको अपना टेंपर नहीं खोना चाहिए और न ही उन पर हाथ उठाना या चिल्लाना चाहिए। आप जितना उन पर भड़केंगे आपके

सामने आने में उन्हें उतनी ही झिझक होगी। वो आपसे डरने लगेंगे और कोई बात भी शेर नहीं करेंगे।

5. **जंक फूड खाना**: क्या बच्चे को दो मिनट में बनने वाले नूडल्स खिलाने के बाद आपको अफसोस होता है? बच्चे को जंक या फास्ट फूड खिलाना आसान भले ही हो, लेकिन हम सभी यह जानते हैं कि इस तरह के खाने में पोषक तत्व नहीं होते हैं जो आपको बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। और तो और इस तरह के खाने की लत भी आसानी से लग जाती है और फिर बच्चों को इनकी क्रेविंग भी होने लगती है। ऐसे में बच्चों के सामने जंक फूड खाने से बचें। इससे उन्हें ये लगने लगता है कि जंक फूड खाना उनके लिए भी सही है।

6. **बच्चों के सामने फोन पर चिपके रहना**: बच्चों के साथ खेलने के बजाए हमेशा फोन पर चिपके रहना बुरी आदत तो है ही साथ ही यह बच्चे के साथ नाईरक्षा भी है। बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें फोन या टैबलेट पकड़ा देना तो और भी खराब है। इन हरकतों से बच्चे अपने अंदर ये बात बैठा लेते हैं कि फोन या टैबलेट की स्क्रीन पर आँखें गड़ाए रहना पूरी तरह से ठीक है।